



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052024-254347
CG-DL-E-27052024-254347

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 27, 2024/ज्येष्ठ 6, 1946

No. 117]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 27, 2024/JYAISHTHA 6, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2024

आ.अ. 126(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 434/उ0प्र0-लो0स0/2023(1), दिनांक 20 अक्तूबर, 2023, के द्वारा अधिसूचित मौजूदा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के अतिरिक्त नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारियों को उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों की, तालिका के स्तम्भ (1) में उल्लिखित लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रचलित सामान्य निर्वाचन में मतगणना से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है :-

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
1-सहारनपुर	6. तहसीलदार, बेहट।
	7. खण्ड विकास अधिकारी, मुजफ्फराबाद।
	8. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फराबाद।
	9. तहसीलदार, सहारनपुर।
	10. जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहारनपुर।

	11. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बलियाखेड़ी ।
	12. डिप्टी कलेक्टर प्रथम, सहारनपुर ।
	13. खण्ड विकास अधिकारी, पुंवारका ।
	14. खण्ड शिक्षा अधिकारी, पुंवारका ।
	15. तहसीलदार, देवबन्द ।
	16. खण्ड विकास अधिकारी, देवबन्द ।
	17. खण्ड शिक्षा अधिकारी, देवबन्द ।
	18. डिप्टी कलेक्टर द्वितीय, सहारनपुर ।
	19. तहसीलदार, रामपुर मनिहारन ।
	20. खण्ड शिक्षा अधिकारी, रामपुर मनिहारन ।
2-कैराना	6. अधिशासी अभियन्ता लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, शामली ।
	7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, ऊन ।
	8. अधिशासी अभियन्ता जल निगम, शामली ।
	9. बाल विकास परियोजना अधिकारी, थाना भवन, शामली
	10. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कैराना
	11. जिला अर्थ एवं सांख्यिकीय अधिकारी(ए) शामली
	12. जिला अर्थ एवं सांख्यिकीय अधिकारी(बी) शामली
	13. सहायक श्रमायुक्त, शामली ।
	14. खण्ड विकास अधिकारी, ऊन ।
	15. उपायुक्त राज्य कर खण्ड 1, शामली ।
	16. सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग, शामली ।
	17. जिला कृषि अधिकारी, शामली ।
	18. उप कृषि निदेशक, शामली ।
	19. सहायक निबन्धक एवं सहायक समितियां, शामली ।
	20. उपायुक्त राज्य कर खण्ड 3, शामली ।
	21. खण्ड विकास अधिकारी, सरसावा ।
	22. खण्ड विकास अधिकारी, नागल ।
	23. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नकुड ।
	24. तहसीलदार, नकुड
	25. खण्ड विकास अधिकारी, गंगोह ।
	26. खण्ड शिक्षा अधिकारी, गंगोह ।
3-मुजफ्फरनगर	6. तहसीलदार, बुढाना ।
	7. खण्ड विकास अधिकारी, शाहपुर ।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, बुढाना ।
	9. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बुढाना ।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, सदर, मुजफ्फरनगर ।
	11. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, मुजफ्फरनगर ।
	12. खण्ड विकास अधिकारी, चरथावल ।
	13. खण्ड शिक्षा अधिकारी, चरथावल ।
	14. जिला गन्ना अधिकारी, मुजफ्फरनगर ।
	15. जिला कृषि अधिकारी, मुजफ्फरनगर ।
	16. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी-प्रथम, मुजफ्फरनगर ।
	17. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सदर, मुजफ्फरनगर ।
	18. तहसीलदार, खतौली ।
	19. खण्ड विकास अधिकारी, खतौली ।
	20. नायब तहसीलदार, खतौली ।

	21. खण्ड शिक्षा अधिकारी, खतौली ।
4-बिजनौर	6. खण्ड विकास अधिकारी, मौहम्मदपुर देवमल ।
	7. खण्ड विकास अधिकारी, हल्दौर ।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, जलीलपुर ।
	9. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मौहम्मदपुर देवमल ।
	10. खण्ड शिक्षा अधिकारी, हल्दौर ।
	11. खण्ड शिक्षा अधिकारी, जलीलपुर ।
	12. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर बिजनौर ।
	13. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नूरपुर
	14. खण्ड शिक्षा अधिकारी, अल्हेपुर
	15. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बुढनपुर
	16. खण्ड शिक्षा अधिकारी, अफजलगढ़
	17. खण्ड शिक्षा अधिकारी, आंकू नहतौर
	18. खण्ड शिक्षा अधिकारी, किरतपुर
	19. तहसीलदार, सदर, मुजफ्फरनगर ।
	20. जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर ।
	21. नायब तहसीलदार, पुरकाजी ।
	22. खण्ड शिक्षा अधिकारी, पुरकाजी ।
	23. तहसीलदार, जानसठ ।
	24. खण्ड विकास अधिकारी, जानसठ ।
	25. जिला प्रशिक्षण अधिकारी, जानसठ ।
	26. खण्ड शिक्षा अधिकारी, जानसठ ।
5-नगीना (अ0जा0)	6. खण्ड विकास अधिकारी, अफजलगढ़ ।
	7. खण्ड विकास अधिकारी, कोतवाली ।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, स्योहारा ।
	9. खण्ड विकास अधिकारी, नूरपुर ।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, नजीबाबाद ।
	11. खण्ड विकास अधिकारी, किरतपुर ।
	12. खण्ड विकास अधिकारी, धामपुर ।
	13. खण्ड विकास अधिकारी, नहतौर ।
6-मुरादाबाद	6. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), मुरादाबाद ।
	7. अपर जिलाधिकारी (नगर), मुरादाबाद ।
	8. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मुरादाबाद ।
	9. नगर मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद ।
	10. अपर उपजिलाधिकारी, मुरादाबाद ।
	11. उपजिलाधिकारी (न्यायिक), तहसील बिलारी
	12. डिप्टी कलेक्टर, मुरादाबाद
	13. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मुरादाबाद
	14. जिला विकास अधिकारी, मुरादाबाद
7-रामपुर	7. जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर ।
	8. सहायक आयुक्त जिला उद्योग केन्द्र रामपुर ।
	9. नायब तहसीलदार, तहसील स्वार, रामपुर ।
	10. अधिशासी अभियन्ता-निर्माण खण्ड जल निगम, रामपुर ।
	11. सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 प्रान्तीय खण्ड रामपुर ।
	12. नायब तहसीलदार, तहसील टाण्डा, रामपुर ।
	13. उप प्रभागीय वनाधिकारी-रामपुर ।

	14. खण्ड शिक्षा अधिकारी बिलासपुर, रामपुर।
	15. नायब तहसीलदार, तहसील बिलासपुर, रामपुर।
	16. खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर, रामपुर।
	17. खण्ड विकास अधिकारी चमरव्वा, रामपुर।
	18. नायब तहसीलदार, पनवडिया तहसील सदर, रामपुर।
	19. नायब तहसीलदार, चमरव्वा तहसील सदर, रामपुर।
	20. सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0, निर्माण खण्ड रामपुर।
	21. सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण रामपुर।
	22. नायब तहसीलदार तहसील मिलक, रामपुर।
8-सम्भल	6. उप-संचालक, चकवन्दी, सम्भल।
	7. जिला विकास अधिकारी, सम्भल।
	8. परियोजना निदेशक, डीआरडीए, सम्भल।
	9. जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्भल।
	10. उप निदेशक, कृषि, सम्भल।
9-अमरोहा	6. तहसीलदार, गढमुक्तेश्वर।
	7. खण्ड विकास अधिकारी, गढमुक्तेश्वर।
	8. डिप्टी कलेक्टर प्रथम, अमरोहा।
	9. डिप्टी कलेक्टर द्वितीय, अमरोहा।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, हसनपुर।
	11. परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, अमरोहा।
	12. जिला विद्यालय निरीक्षक, अमरोहा
	13. जिला विकास अधिकारी, अमरोहा
	14. उप निदेशक कृषि, अमरोहा
	15. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अमरोहा
10-मेरठ	6. तहसीलदार, हापुड।
	7. खण्ड विकास अधिकारी, हापुड।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, रोहटा।
	9. खण्ड विकास अधिकारी, सरूरपुर।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, मेरठ।
	11. खण्ड शिक्षा अधिकारी, परीक्षितगढ।
	12. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सरधना।
	13. खण्ड शिक्षा अधिकारी, हस्तिनापुर।
	14. खण्ड शिक्षा अधिकारी, रजपुरा।
	15. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मेरठ ग्रामीण।
	16. नायब तहसीलदार प्रथम, मेरठ
	17. नायब तहसीलदार द्वितीय, मेरठ
	18. नायब तहसीलदार हस्तिनापुर, तहसील मवाना
	19. नायब तहसीलदार सरधना, तहसील सरधना
	20. जिला गन्ना अधिकारी, मेरठ
	21. जिला कार्यक्रम अधिकारी, मेरठ
11-बागपत	6. अपर जिलाधिकारी(न्यायिक) बागपत
	7. डिप्टी कलेक्टर/प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट द्वितीय बागपत
	8. जिला विकास अधिकारी, बागपत
	9. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागपत
	10. डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, बागपत
	11. जिला कृषि अधिकारी, बागपत

	12. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, (प0) बागपत
	13. जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, बागपत
	14. जिला आबकारी अधिकारी, बागपत
	15. खण्ड विकास अधिकारी, पिलाना
	16. खण्ड विकास अधिकारी, बड़ौत
	17. खण्ड विकास अधिकारी, छपरौली
	18. अपर सांख्यिकीय अधिकारी, बचत, बागपत
	19. जिला प्रोबेशन अधिकारी, बागपत
	20. खण्ड शिक्षा अधिकारी, भोजपुर।
	21. जिला गन्ना अधिकारी, गाजियाबाद।
12-गाजियाबाद	6. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, लोनी।
	7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, लोनी।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, मुरादनगर।
	9. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुरादनगर।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, रजापुर।
	11. खण्ड शिक्षा अधिकारी, रजापुर।
	12. कृषि रक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।
	13. जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) गाजियाबाद।
	14. पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद।
	15. जिला समाज कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद।
	16. जिला प्रोबेशन अधिकारी, गाजियाबाद।
	17. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, गाजियाबाद।
	18. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर, गाजियाबाद।
	19. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कविनगर जोन, गाजियाबाद।
	20. तहसीलदार, धौलाना
	21. खण्ड विकास अधिकारी धौलाना
13-गौतम बुद्ध नगर	6. जिला उद्यान अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
	7. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
	8. उपायुक्त, उद्योग, गौतमबुद्धनगर
	9. उप कृषि निदेशक, गौतमबुद्धनगर
	10. खण्ड विकास अधिकारी, बिसरख, गौतमबुद्धनगर
	11. जिला प्रोबेशन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
	12. खण्ड विकास अधिकारी, दादरी, गौतमबुद्धनगर
	13. जिला कृषि अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
	14. जिला कार्यक्रम अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
	15. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
	16. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
	17. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
	18. जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास), गौतमबुद्धनगर।
	19. अपर श्रम आयुक्त, गौतमबुद्धनगर
	20. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
	21. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
14-बुलन्दशहर (अ0जा0)	6. उपजिलाधिकारी (न्यायिक), सदर बुलन्दशहर।
	7. उपजिलाधिकारी (न्यायिक), स्याना।
	8. उपजिलाधिकारी (न्यायिक), अनूपशहर।
	9. उपजिलाधिकारी (न्यायिक), खुर्जा।

	10. जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
	11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर।
	12. जिला पंचायत राज अधिकारी, बुलन्दशहर।
	13. उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, बुलन्दशहर।
	14. खण्ड विकास अधिकारी, सिकन्दराबाद।
	15. खण्ड विकास अधिकारी, जहांगीराबाद।
	16. खण्ड विकास अधिकारी, शिकारपुर
	17. खण्ड विकास अधिकारी, खुर्जा
	18. खण्ड शिक्षा अधिकारी, अरनिया
	19. खण्ड शिक्षा अधिकारी, गुलावठी
	20. खण्ड शिक्षा अधिकारी, शिकारपुर
	21. खण्ड शिक्षा अधिकारी, पहासू
	22. जिला गन्ना अधिकारी, बुलन्दशहर
	23. सहायक श्रमायुक्त, बुलन्दशहर
	24. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, बुलन्दशहर
	25. जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर
15-अलीगढ़	6. उप जिलाधिकारी(न्यायिक), इगलास
	7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, चण्डौस
	8. खण्ड शिक्षा अधिकारी, अतरौली
	9. खण्ड शिक्षा अधिकारी, लोधा
	10. खण्ड शिक्षा अधिकारी, इगलास
	11. खण्ड शिक्षा अधिकारी, खैर
	12. खण्ड शिक्षा अधिकारी, टप्पल
	13. खण्ड शिक्षा अधिकारी, जवां
	14. खण्ड शिक्षा अधिकारी, अकराबाद
	15. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र जोन 1, अलीगढ़
	16. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र जोन 2, अलीगढ़
	17. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र जोन 3, अलीगढ़
	18. खण्ड विकास अधिकारी, खैर
	19. खण्ड विकास अधिकारी, टप्पल
	20. खण्ड विकास अधिकारी, चण्डौस
	21. खण्ड विकास अधिकारी, अतरौली
	22. खण्ड विकास अधिकारी, बिजौली
	23. खण्ड विकास अधिकारी, जवां
16-हाथरस (अ0जा0)	6. खण्ड शिक्षा अधिकारी, हाथरस
	7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सासनी
	8. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सादाबाद
	9. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुरसान
	10. खण्ड विकास अधिकारी, सहपऊ
	11. खण्ड विकास अधिकारी, हाथरस।
	12. खण्ड विकास अधिकारी, सादाबाद।
	13. खण्ड विकास अधिकारी, सिकन्दराराऊ।
	14. खण्ड विकास अधिकारी, सासनी।
	15. खण्ड विकास अधिकारी, हसायन
	16. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हाथरस

	17. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस ।
	18. जिला कार्यक्रम अधिकारी, हाथरस ।
	19. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हाथरस ।
	20. जिला कृषि रक्षा अधिकारी, हाथरस
	21. उप निदेशक कृषि, हाथरस
17-मथुरा	6. खण्ड विकास अधिकारी, फरह
	7. खण्ड विकास अधिकारी, नन्दगांव
	8. खण्ड विकास अधिकारी, गोवर्धन
	9. खण्ड विकास अधिकारी, नौहझील
	10. खण्ड शिक्षा अधिकारी, चौमुहां
	11. खण्ड शिक्षा अधिकारी, छाता
	12. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नन्दगांव
	13. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मांट
	14. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नौहझील
	15. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मथुरा(ग्रामीण)
	16. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मथुरा(नगर क्षेत्र)
	17. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बल्देव
18-आगरा (अ0जा0)	6. तहसीलदार एत्मादपुर
	7. खण्ड विकास अधिकारी, एत्मादपुर
	8. अधीक्षण अभियन्ता, प्रान्तीय मण्डल, सिंचाई कार्य, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग आगरा
	9. अधिशासी अभियन्ता, विकास खण्ड-2, उ0प्र0 आवास विकास विभाग, आगरा
	10. जिला पंचायत राज अधिकारी, आगरा
	11. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण निगम लिमिटेड इकाई-1, आगरा
	12. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक, आगरा विकास प्राधिकरण, आवास एवं शहरी नियोजन, आगरा ।
	13. प्रधानाचार्य, आई0टी0आई0 आगरा
	14. खण्ड विकास अधिकारी, बरौली अहीर
	15. अधिशासी अभियन्ता, सिविल, आगरा विकास प्राधिकरण, आवास एवं शहरी नियोजन आगरा ।
	16. अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त ऑफिस काम्पलेक्स सेक्टर 13 सिकन्दरा, आगरा ।
	17. प्रधानाचार्य, आई0टी0आई0 फतेहाबाद, आगरा ।
	18. खण्ड विकास अधिकारी, बिचपुरी
	19. अधीक्षण अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण, आवास एवं शहरी नियोजन आगरा ।
	20. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम आगरा
	21. खण्ड विकास अधिकारी, अछनेरा
19-फतेहपुर सीकरी	6. तहसीलदार, सदर, आगरा
	7. खण्ड विकास अधिकारी, सैंया
	8. अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त लोक निर्माण विभाग, आगरा
	9. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, खेरागढ़, आगरा
	10. तहसीलदार किरावली, आगरा
	11. खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुरी सीकरी

	12. अधिशासी अभियन्ता, आगरा वृत्त, लोक निर्माण विभाग, आगरा
	13. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय, फतेहाबाद, आगरा
	14. तहसीलदार, खेरागढ, आगरा
	15. खण्ड विकास अधिकारी, खेरागढ
	16. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, चतुर्थ, किरावली, आगरा
	17. अधीक्षण अभियन्ता, कार्यालय पी.एम.जी.एस.वाई. वृत्त, लोक निर्माण विभाग, आगरा
	18. तहसीलदार, फतेहाबाद
	19. खण्ड विकास अधिकारी, फतेहाबाद
	20. अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0 कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट 121ए, सेक्टर-13, आवास विकास कालोनी, आगरा
	21. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बाह, आगरा
	22. तहसीलदार, बाह
	23. खण्ड विकास अधिकारी, बाह
	24. अधिशासी अभियन्ता, केन्द्रीय जल आयोग, निचली यमुना मंडल, से0-12सी, आ0वि0कालोनी, आगरा
	25. अधीक्षण अभियन्ता, यू0पी0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 आगरा
20-फिरोजाबाद	6. जिला उद्यान अधिकारी, फिरोजाबाद ।
	7. उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, फिरोजाबाद ।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, फिरोजाबाद
	9. खण्ड विकास अधिकारी, जसराना
	10. खण्ड विकास अधिकारी, हाथवन्त
	11. खण्ड विकास अधिकारी, टूण्डला
	12. खण्ड विकास अधिकारी, शिकोहाबाद
	13. खण्ड विकास अधिकारी, मदनपुर
	14. खण्ड विकास अधिकारी, अरॉव
	15. खण्ड विकास अधिकारी, एका
21-मैनपुरी	6. उप जिलाधिकारी, धिरोर ।
	7. उप जिलाधिकारी, कुरावली ।
	8. डिप्टी कलेक्टर, मैनपुरी ।
	9. तहसीलदार, कुरावली ।
	10. तहसीलदार, धिरोर ।
	11. जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी ।
	12. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी ।
	13. सहायक जिला रोजगार सेवायोजन अधिकारी, मैनपुरी ।
	14. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मैनपुरी ।
	15. उप निदेशक कृषि, मैनपुरी ।
	16. जिला दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण अधिकारी, मैनपुरी ।
	17. खण्ड विकास अधिकारी, मैनपुरी ।
	18. खण्ड विकास अधिकारी, बेवर ।
	19. खण्ड विकास अधिकारी, किशनी ।
	20. खण्ड विकास अधिकारी, जागीर ।
	21. खण्ड विकास अधिकारी, करहल ।
	22. खण्ड विकास अधिकारी, धिरोर ।

	23. खण्ड विकास अधिकारी, सुल्तानगंज ।
	24. खण्ड विकास अधिकारी, कुरावली ।
	25. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) भोगांव, मैनपुरी ।
22-एटा	6. उप कृषि निदेशक, कासगंज
	7. खण्ड विकास अधिकारी, कासगंज ।
	8. सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कासगंज ।
	9. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कासगंज ।
	10. खण्ड शिक्षा अधिकारी, अमांपुर ।
	11. सहायक चकबन्दी अधिकारी, कासगंज ।
	12. खण्ड शिक्षा अधिकारी, पटियाली ।
	13. तहसीलदार, कासगंज
	14. तहसीलदार, सहावर
	15. तहसीलदार, पटियाली
	16. जिला उद्यान अधिकारी, कासगंज
	17. जिला समाज कल्याण अधिकारी, कासगंज
	18. जिला गन्ना अधिकारी, कासगंज
	19. परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, कासगंज
	20. खण्ड विकास अधिकारी, सोरों
	21. खण्ड विकास अधिकारी, सहावर
	22. खण्ड विकास अधिकारी, अमांपुर
23-बदायूँ	6. तहसीलदार, सदर, बदायूँ ।
	7. तहसीलदार, सहसवान ।
	8. तहसीलदार, बिल्सी ।
	9. तहसीलदार, बिसौली ।
	10. तहसीलदार, दातागंज ।
	11. जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूँ ।
	12. खण्ड विकास अधिकारी, आसफपुर ।
	13. खण्ड विकास अधिकारी, कादरचौक ।
	14. खण्ड विकास अधिकारी, बिसौली ।
	15. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कादरचौक ।
	16. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सालारपुर ।
	17. खण्ड शिक्षा अधिकारी, दहगवों ।
	18. जिला समन्वयक(बालिका शिक्षा) बदायूँ
	19. सहायक श्रमायुक्त, बदायूँ ।
	20. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, बदायूँ ।
	21. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बदायूँ ।
	22. जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, बदायूँ ।
	23. जिला रोजगार अधिकारी, बदायूँ ।
24-आंवला	6. उप निदेशक मंडलीय उप शिक्षा निदेशक मा0 तृतीय मंडल, बरेली
	7. संयुक्त आयुक्त उद्योग, बरेली मंडल, बरेली
	8. सहायक अभियन्ता/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बरेली
	9. सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं अवस्थापना विकास निगम, बरेली
	10. अवर अभियन्ता (सिविल) निर्माण खण्ड-1 लोक निर्माण विभाग, बरेली

	11. संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक) सम्भाग-बी उपायुक्त प्रशासन राज्य कर बरेली
	12. संयुक्त आयुक्त, (वि0अनु0शा0) सम्भाग-बी उपायुक्त प्रशासन राज्य कर बरेली
	13. खण्ड शिक्षा अधिकारी, फरीदपुर।
	14. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बिथरी, चैनपुर।
	15. खण्ड विकास अधिकारी, मझगवां।
25-बरेली	6. सहायक अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन(ज0सं0) खण्ड, बरेली
	7. असिस्टेंट प्रोफेसर, बरेली कालेज, बरेली
	8. उपायुक्त राज्य कर विभाग खण्ड-2 बरेली
	9. उपायुक्त राज्य कर विभाग खण्ड-5 बरेली
	10. क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी बरेली मंडल, बरेली
	11. खण्ड विकास अधिकारी, फतेहगंज (पश्चिमी)।
	12. खण्ड विकास अधिकारी, भोजीपुरा।
	13. खण्ड विकास अधिकारी, बहेडी।
	14. खण्ड शिक्षा अधिकारी, भोजीपुरा।
	15. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नवाबगंज।
26-पीलीभीत	16. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मीरगंज।
	6. खण्ड शिक्षा अधिकारी, अमरिया
	7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बरखेडा
	8. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बिलसण्डा
	9. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बीसलपुर
	10. खण्ड शिक्षा अधिकारी, ललौरीखेडा
	11. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मरौरी
	12. खण्ड शिक्षा अधिकारी, पूरनपुर
	13. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर पीलीभीत
	14. खण्ड विकास अधिकारी, अमरिया
27-शाहजहांपुर (अ0जा0)	15. खण्ड विकास अधिकारी, बरखेडा
	16. खण्ड विकास अधिकारी, बिलसण्डा
	17. खण्ड विकास अधिकारी, बीसलपुर
	18. खण्ड विकास अधिकारी, ललौरीखेडा
	19. खण्ड विकास अधिकारी, पूरनपुर
	20. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, पीलीभीत
	7. तहसीलदार, कलान।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, जैतीपुर।
	9. तहसीलदार, जलालाबाद।
	10. खण्ड शिक्षा अधिकारी, जलालाबाद।
	11. तहसीलदार, तिलहर।
	12. खण्ड विकास अधिकारी, कटरा-खुदागंज।
	13. तहसीलदार, पुवायॉ।
	14. खण्ड विकास अधिकारी, बण्डा।
	15. तहसीलदार, सदर, शाहजहाँपुर।
	16. खण्ड विकास अधिकारी, भावलखेडा।
	17. चकबन्दी अधिकारी, शाहजहाँपुर।
	18. खण्ड विकास अधिकारी, ददरौल।
	19. अतिरिक्त मजिस्ट्रेट-प्रथम, शाहजहाँपुर।

	20. प्राचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, शाहजहाँपुर।
	21. जिला गन्ना अधिकारी, शाहजहाँपुर।
	22. उपायुक्त, व्यापार कर, शाहजहाँपुर।
	23. खण्ड शिक्षा अधिकारी, भावलखेड़ा।
28-खीरी	6. तहसीलदार, पलिया।
	7. तहसीलदार, निघासन।
	8. तहसीलदार, गोला गोकर्ननाथ।
	9. तहसीलदार, लखीमपुर।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, लखीमपुर।
	11. खण्ड विकास अधिकारी, बिजुआ
	12. खण्ड विकास अधिकारी, नकहा
	13. खण्ड विकास अधिकारी, निघासन
	14. खण्ड विकास अधिकारी, फूलबेहड़
	15. खण्ड विकास अधिकारी, गोला
29-धौरहरा	6. जिला विकास अधिकारी, खीरी
	7. तहसीलदार, धौरहरा।
	8. तहसीलदार, मितौली।
	9. तहसीलदार, मोहम्मदी।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, मोहम्मदी
	11. खण्ड विकास अधिकारी, मितौली
	12. खण्ड विकास अधिकारी, धौरहरा
	13. खण्ड विकास अधिकारी, ईसानगर
	14. खण्ड विकास अधिकारी, रमियाबेहड़
	15. खण्ड विकास अधिकारी, बांकेगंज
30-सीतापुर	6. खण्ड विकास अधिकारी, खैराबाद।
	7. खण्ड विकास अधिकारी, बिसवां।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, परसेड़ी।
	9. खण्ड विकास अधिकारी, महमूदाबाद।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, पहला।
	11. खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर मथुरा।
	12. खण्ड विकास अधिकारी, सकरन।
31-हरदोई (अ0जा0)	6. खण्ड विकास अधिकारी, हरपालपुर।
	7. खण्ड विकास अधिकारी, शाहाबाद।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, बावन।
	9. खण्ड विकास अधिकारी, टडियावां।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, हरियावां।
	11. खण्ड विकास अधिकारी, पिहानी
	12. खण्ड विकास अधिकारी, सुरसा
	13. खण्ड विकास अधिकारी, अहिरोरी
	14. जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई
32-मिश्रिख (अ0जा0)	6. खण्ड विकास अधिकारी, बिलग्राम।
	7. खण्ड विकास अधिकारी, बेहंदर।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, सण्डीला।
	9. खण्ड विकास अधिकारी, भरावन
	10. खण्ड विकास अधिकारी, कोथावां
	11. खण्ड विकास अधिकारी, माधौगंज

	12. खण्ड विकास अधिकारी, मल्लावां
	13. खण्ड विकास अधिकारी, टोंडरपुर
	14. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई
33-उन्नाव	7. खण्ड विकास अधिकारी, नवाबगंज
	8. खण्ड विकास अधिकारी, औरास
	9. खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर 84
	10. खण्ड विकास अधिकारी, बाँगरमऊ ।
	11. खण्ड विकास अधिकारी, सफीपुर ।
	12. खण्ड विकास अधिकारी, हसनगंज
	13. खण्ड विकास अधिकारी, पुरवा ।
	14. खण्ड विकास अधिकारी, सिकन्दरपुर सरोसी ।
	15. खण्ड विकास अधिकारी, बीघापुर
	16. खण्ड विकास अधिकारी, बिछिया
	17. खण्ड शिक्षा अधिकारी, असोहा ।
	18. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बिछिया ।
	19. खण्ड शिक्षा अधिकारी, हसनगंज ।
	20. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सि० कर्ण
	21. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सुमेरपुर
34-मोहनलालगंज (अ०जा०)	6. जिला विकास अधिकारी, लखनऊ ।
	7. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ ।
	8. तहसीलदार, मलिहाबाद ।
	9. खण्ड विकास अधिकारी, मलिहाबाद ।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, माल ।
	11. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मलिहाबाद ।
	12. खण्ड शिक्षा अधिकारी, माल ।
	13. तहसीलदार, बक्शी का तालाब ।
	14. खण्ड विकास अधिकारी, बक्शी का तालाब ।
	15. खण्ड विकास अधिकारी, चिनहट ।
	16. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बक्शी का तालाब ।
	17. खण्ड शिक्षा अधिकारी, चिनहट ।
	18. तहसीलदार, सरोजनीनगर ।
	19. खण्ड विकास अधिकारी, सरोजनीनगर ।
	20. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सरोजनीनगर ।
	21. जिला सहायक निबंधक एवं सहकारी समितियां, लखनऊ ।
	22. जिला युवा कल्याण अधिकारी, लखनऊ ।
	23. तहसीलदार, मोहनलालगंज ।
	24. खण्ड विकास अधिकारी, मोहनलालगंज ।
	25. खण्ड विकास अधिकारी, गोसाईगंज ।
	26. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मोहनलालगंज ।
	27. खण्ड शिक्षा अधिकारी, गोसाईगंज ।
35-लखनऊ	6. अपर जिलाधिकारी, न्यायिक लखनऊ ।
	7. नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ ।
	8. अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम, लखनऊ ।
	9. खण्ड विकास अधिकारी, काकोरी
	10. खण्ड शिक्षा अधिकारी, काकोरी ।
	11. जिला कृषि रक्षा अधिकारी, लखनऊ ।

	12. जिला प्रोबेशन अधिकारी, लखनऊ।
	13. भूमि संरक्षण अधिकारी, लखनऊ।
	14. चक्रवर्दी अधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ।
	15. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र जोन-3
	16. जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ।
	17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मत्स्य), लखनऊ।
	18. जिला कृषि अधिकारी, लखनऊ।
	19. बाल विकास परियोजना अधिकारी, मलिहाबाद।
	20. बाल विकास परियोजना अधिकारी, चिनहट।
	21. बाल विकास परियोजना अधिकारी, मोहनलालगंज।
	22. सब रजिस्ट्रार, सदर प्रथम, लखनऊ।
	23. सब रजिस्ट्रार, सदर द्वितीय, लखनऊ।
	24. तहसीलदार, सदर, लखनऊ।
	25. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र जोन-4
	26. जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, लखनऊ।
	27. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
	28. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, लखनऊ।
	29. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र जोन-1
	30. जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, लखनऊ।
	31. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लखनऊ।
	32. जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), लखनऊ।
	33. उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, लखनऊ।
36-राय बरेली	6. खण्ड विकास अधिकारी, महाराजगंज
	7. खण्ड विकास अधिकारी, राही
	8. खण्ड विकास अधिकारी, सरेनी
	9. खण्ड विकास अधिकारी, हरचन्द्रपुर
	10. खण्ड विकास अधिकारी, लालगंज
	11. खण्ड विकास अधिकारी, डलमऊ
	12. खण्ड विकास अधिकारी, ऊँचाहार
	13. खण्ड विकास अधिकारी, डीह
	14. खण्ड शिक्षा अधिकारी, राही
	15. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बछरावां
	16. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सतांव
	17. खण्ड शिक्षा अधिकारी, ऊँचाहार
37-अमेठी	6. खण्ड विकास अधिकारी, तिलोई।
	7. खण्ड विकास अधिकारी, बहादुरपुर।
	8. खण्ड शिक्षा अधिकारी, तिलाई।
	9. खण्ड विकास अधिकारी, मुसाफिरखाना।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, बाजारशुकुल।
	11. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुसाफिरखाना।
	12. खण्ड विकास अधिकारी, गौरीगंज।
	13. खण्ड विकास अधिकारी, जामों।
	14. खण्ड शिक्षा अधिकारी, गौरीगंज।
	15. खण्ड विकास अधिकारी, अमेठी।
	16. खण्ड विकास अधिकारी, संग्रामपुर।
	17. खण्ड शिक्षा अधिकारी, अमेठी।

	18. भूमि संरक्षण अधिकारी, अमेठी
	19. पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अमेठी
	20. जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, अमेठी
	21. डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, अमेठी
	22. सहायक संख्याधिकारी, अमेठी
	23. जिला समाज कल्याण अधिकारी(वि०)
	24. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, अमेठी
	25. चकबन्दी अधिकारी, मुसाफिरखाना
38-सुल्तानपुर	6. बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, सुल्तानपुर।
	7. अपर उप जिलाधिकारी (सदर) सुल्तानपुर।
	8. जिला पंचायत राज अधिकारी, सुल्तानपुर।
	9. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सुल्तानपुर।
	10. सहायक श्रमायुक्त, सुल्तानपुर।
	11. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, पी०डब्लू०डी०, सुल्तानपुर।
	12. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-2, सुल्तानपुर।
	13. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, सुल्तानपुर।
	14. अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड-16, सुल्तानपुर।
	15. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड, सुल्तानपुर
	16. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सुल्तानपुर।
	17. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, अमहट, सुल्तानपुर।
	18. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, सुल्तानपुर।
	19. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, ग्रामीण, विनावपुरी, सुल्तानपुर।
	20. वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सुल्तानपुर।
	21. उपायुक्त राज्यकर, सुल्तानपुर।
39-प्रतापगढ़	6. मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़।
	7. जिला विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
	8. जिला कृषि अधिकारी, प्रतापगढ़।
	9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़।
	10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
	11. जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रतापगढ़।
	12. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, प्रतापगढ़।
40-फर्रुखाबाद	6. डिप्टी कलेक्टर (मुख्यालय), फर्रुखाबाद
	7. खण्ड विकास अधिकारी, कायमगंज।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, नवाबगंज।
	9. खण्ड विकास अधिकारी, शमसाबाद।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, कमालगंज।
	11. खण्ड विकास अधिकारी, मोहम्मदाबाद।
	12. खण्ड विकास अधिकारी, राजेपुर।
	13. खण्ड विकास अधिकारी, बड़पुर।
	14. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कायमगंज।
	15. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र, फर्रुखाबाद।

	16. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नवाबगंज ।
	17. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बटपुर ।
	18. सहायक महानिरीक्षक निबंधन, फर्रुखाबाद
41-इटावा (अ0जा0)	6. अतिरिक्त उप जिलाधिकारी, इटावा ।
	7. उप जिलाधिकारी, (न्यायिक), सदर, इटावा
	8. उप जिलाधिकारी, (न्यायिक), भरथना
	9. उप जिलाधिकारी, ताखा
	10. उप जिलाधिकारी, चकरनगर
	11. तहसीलदार, सैफई
	12. तहसीलदार, ताखा
	13. तहसीलदार, चकरनगर
	14. तहसीलदार, (न्यायिक), भरथना
	15. नायब तहसीलदार, सैफई
	16. नायब तहसीलदार, भरथना
	17. नायब तहसीलदार, चकरनगर
	18. नायब तहसीलदार, बसरेहर
	19. खण्ड शिक्षा अधिकारी, भरथना
	20. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सैफई
	21. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र, इटावा
	22. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रथम
	23. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय द्वितीय
	24. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय तृतीय
	25. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बटपुरा
	26. खण्ड विकास अधिकारी, भरथना
	27. खण्ड विकास अधिकारी, बसरेहर
	28. खण्ड विकास अधिकारी, ताखा
42-कन्नौज	6. जिला विकास अधिकारी, कन्नौज ।
	7. खण्ड विकास अधिकारी, छिबरामऊ ।
	8. अधिशासी अभियंता, नलकूप खण्ड, कन्नौज ।
	9. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कन्नौज सदर ।
	10. जिला उद्यान अधिकारी, कन्नौज ।
	11. जिला विद्यालय निरीक्षक, कन्नौज ।
	12. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कन्नौज ।
	13. परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए., कन्नौज ।
	14. खण्ड विकास अधिकारी, हसेरन ।
	15. जिला प्रोवेशन अधिकारी, कन्नौज ।
	16. अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0(नि0ख0), कन्नौज ।
	17. जिला समाज कल्याण अधिकारी, कन्नौज ।
	18. खण्ड शिक्षा अधिकारी, उमर्दा ।
	19. भूमि संरक्षण अधिकारी, कन्नौज ।
	20. सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, कन्नौज ।
43-कानपुर	6. अपर जिलाधिकारी(भूमि अध्याप्ति), कानपुर नगर
	7. विशेष कार्याधिकारी, प्रथम, के0डी0ए0, कानपुर नगर ।
	8. सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-17, कानपुर नगर ।
	9. सहायक आयुक्त, राज्य कर, सचल दल, इकाई-7, कानपुर नगर ।
	10. सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-1 कानपुर नगर ।

	11. सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-10, कानपुर नगर।
	12. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, कानपुर नगर
	13. उप निबन्धक जोन-1 सदर कानपुर नगर
	14. अधिशाषी अभियन्ता अभियन्त्रण खण्ड जोन-6 सरोजनी नगर कानपुर नगर
	15. अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड-02 पी0डब्लू0डी0 कानपुर नगर
	16. अधिशाषी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर नगर
	17. उप निबन्धक जोन-2 सदर कानपुर नगर
44-अकबरपुर	6. सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर नगर
	7. विशेष कार्याधिकारी, द्वितीय, के0डी0ए0, कानपुर नगर।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, विधनू, कानपुर नगर।
	9. उप निबन्धक जोन-4 सदर कानपुर नगर
	10. खण्ड विकास अधिकारी, भीतरगाँव कानपुर नगर।
	11. उप निबन्धक घाटमपुर, कानपुर नगर
	12. अधिशाषी अभियन्ता अनुसंधान एवं नियोजन (ज0स0) खण्ड कानपुर नगर
	13. अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0 स्टेट कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कानपुर नगर
	14. अधिशाषी अभियन्ता नगर निगम जोन-2 कृष्णानगर कानपुर नगर
	15. अधिशाषी अभियन्ता अभियन्त्रण खण्ड 05 नगर निगम जोन-5 जागेश्वर हास्पिटल कानपुर नगर
	16. उप निबन्धक बिल्हौर कानपुर नगर
	17. उप निबन्धक जोन-3 सदर कानपुर नगर
	18. अधिशाषी अभियन्ता विद्युत यान्त्रिक खण्ड, मकराबटगंज, कानपुर नगर
	19. अधिशाषी अभियन्ता, नलकूप खण्ड प्रथम, कानपुर नगर
	20. उप निदेशक उद्यान, कानपुर नगर
	21. अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लिमिटेड, फजलगंज, कानपुर नगर
	22. उप आयुक्त खण्ड 15 राज्य कर, कानपुर नगर
	23. उप निदेशक (निर्माण), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, कानपुर नगर
45-जालौन (अ0जा0)	6. उप जिला मजिस्ट्रेट, कोंच।
	7. उप जिला मजिस्ट्रेट, जालौन।
	8. अतिरिक्त उप जिला मजिस्ट्रेट सदर उरई।
	9. तहसीलदार, कोंच
	10. तहसीलदार, माधौगढ
	11. तहसीलदार, कालपी
	12. तहसीलदार, उरई
	13. तहसीलदार, जालौन
	14. खण्ड विकास अधिकारी, जालौन
	15. खण्ड विकास अधिकारी, रामपुरा
	16. खण्ड विकास अधिकारी, महेवा
	17. खण्ड विकास अधिकारी, कुठौंद
	18. खण्ड विकास अधिकारी, नदीगांव

46-झाँसी	6. उप जिलाधिकारी (न्यायिक), मोंठ ।
	7. तहसीलदार, मोंठ ।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, मोंठ ।
	9. जिला विद्यालय निरीक्षक, झाँसी ।
	10. नायब तहसीलदार, क्षेत्र मोंठ, तहसील मोंठ ।
	11. उप जिलाधिकारी, (न्यायिक), झाँसी ।
	12. तहसीलदार, झाँसी ।
	13. जिला दिव्यांग एवं सशक्तीकरण अधिकारी, झाँसी ।
	14. खण्ड विकास अधिकारी, बबीना ।
	15. नायब तहसीलदार, क्षेत्र झाँसी, तहसील झाँसी ।
	16. उप जिलाधिकारी (न्यायिक), मऊरानीपुर ।
	17. तहसीलदार, मऊरानीपुर ।
	18. तहसीलदार, टहरौली ।
	19. खण्ड विकास अधिकारी, बंगरा ।
	20. नायब तहसीलदार, क्षेत्र रानीपुर, तहसील मऊरानीपुर ।
	21. उप जिलाधिकारी (न्यायिक), गरौठा ।
	22. तहसीलदार, गरौठा ।
	23. जिला पंचायत राज अधिकारी, झाँसी ।
	24. खण्ड विकास अधिकारी, गुरसराय ।
	25. नायब तहसीलदार, क्षेत्र गुरसराय, तहसील गरौठा ।
47-हमीरपुर	6. उपजिलाधिकारी, चरखारी ।
	7. तहसीलदार, महोबा ।
	8. तहसीलदार, कुलपहाड़ ।
	9. तहसीलदार, चरखारी ।
	10. चकबन्दी अधिकारी, हमीरपुर
	11. खण्ड विकास अधिकारी, मौदहा ।
	12. सहायक निदेशक, मत्स्य, हमीरपुर ।
	13. उपायुक्त, उद्योग, हमीरपुर ।
	14. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुस्करा ।
	15. खण्ड शिक्षा अधिकारी, गोहाण्ड ।
	16. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हमीरपुर ।
	17. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मौदहा ।
	18. जिला प्रोबेशन अधिकारी, हमीरपुर ।
	19. जिला समाज कल्याण अधिकारी, हमीरपुर ।
48-बांदा	6. उप जिलाधिकारी, राजापुर ।
	7. उप जिलाधिकारी, अतर्रा ।
	8. तहसीलदार, पैलानी
	9. तहसीलदार, बबेरू
	10. तहसीलदार, नरैनी
	11. तहसीलदार, अतर्रा
	12. तहसीलदार, बांदा
	13. खण्ड विकास अधिकारी, तिन्दवारी
	14. खण्ड विकास अधिकारी, बबेरू
	15. खण्ड विकास अधिकारी, नरैनी
49-फतेहपुर	7. खण्ड विकास अधिकारी, अमौली ।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, खजुहा ।

	9. खण्ड विकास अधिकारी, हस्वा ।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, असोथर ।
	11. खण्ड विकास अधिकारी, ऐरांया ।
	12. खण्ड विकास अधिकारी, धाता ।
	13. खण्ड विकास अधिकारी, देवमई
	14. खण्ड विकास अधिकारी, मलवां
	15. खण्ड विकास अधिकारी, भिटौरा
	16. खण्ड विकास अधिकारी, बहुवा
	17. खण्ड विकास अधिकारी, हथगाम
	18. खण्ड विकास अधिकारी, विजयीपुर
	19. खण्ड शिक्षा अधिकारी, देवमई
	20. खण्ड शिक्षा अधिकारी, विजयीपुर
	21. खण्ड शिक्षा अधिकारी, धाता
50-कौशाम्बी (अ0जा0)	6. उप जिलाधिकारी(न्यायिक) चायल, कौशाम्बी
	7. खण्ड विकास अधिकारी, कौशाम्बी ।
	8. खण्ड विकास अधिकारी मन्झनपुर
	9. खण्ड विकास अधिकारी, मूरतगंज
	10. सहायक खण्ड शिक्षा अधिकारी, कौशाम्बी
	11. सहायक खण्ड शिक्षा अधिकारी, कडा
	12. सहायक खण्ड शिक्षा अधिकारी, नेवादा
51-फूलपुर	6. तहसीलदार, सोरॉव ।
	7. खण्ड विकास अधिकारी, होलागढ़ ।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, श्रृंगवेरपुर धाम ।
	9. नायब तहसीलदार (नवाबगंज) सोरॉव ।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, मऊआइमा ।
	11. खण्ड विकास अधिकारी, सोरॉव ।
	12. चकबन्दी अधिकारी, सोरॉव ।
	13. नायब तहसीलदार (मीर्जापुर चौहारी) सोरॉव ।
	14. तहसीलदार, फूलपुर ।
	15. खण्ड विकास अधिकारी, फूलपुर ।
	16. खण्ड विकास अधिकारी, सहसों ।
	17. नायब तहसीलदार, मध्य फूलपुर ।
	18. खण्ड विकास अधिकारी, बहादुरपुर ।
	19. खण्ड विकास अधिकारी, बहरिया ।
	20. खण्ड विकास अधिकारी, भगवतपुर ।
	21. नायब तहसीलदार, राजकीय आस्थान ।
	22. तहसीलदार सदर, प्रयागराज ।
	23. खण्ड विकास अधिकारी, कौडिहार ।
	24. नायब तहसीलदार, व्यापार कर ।
52-इलाहाबाद	6. तहसीलदार, मेजा ।
	7. खण्ड विकास अधिकारी, मेजा ।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, माण्डा ।
	9. खण्ड विकास अधिकारी, उरूवा ।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, चाका ।
	11. खण्ड विकास अधिकारी, करछना ।
	12. खण्ड विकास अधिकारी, कौंधियारा ।

	13. नायब तहसीलदार, पनासा करछना ।
	14. तहसीलदार, करछना ।
	15. चकबन्दी अधिकारी सदर, प्रयागराज ।
	16. नायब तहसीलदार, सीलिंग ।
	17. नायब तहसीलदार, (नैनी) करछना ।
	18. तहसीलदार, बारा ।
	19. खण्ड विकास अधिकारी, शंकरगढ़ ।
	20. खण्ड विकास अधिकारी, जसरा ।
	21. नायब तहसीलदार, बारा ।
	22. तहसीलदार, कोराँव ।
	23. खण्ड विकास अधिकारी, कोराँव ।
	24. नायब तहसीलदार, बड़ोखर कोराँव ।
	25. नायब तहसीलदार, डइया कोराँव ।
53-बाराबंकी (अ0जा0)	6. खण्ड विकास अधिकारी, निन्दूरा
	7. खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर
	8. खण्ड विकास अधिकारी, बनीकोडर
	9. खण्ड विकास अधिकारी, बंकी
	10. खण्ड विकास अधिकारी, सूरतगंज
	11. खण्ड विकास अधिकारी, देवा
	12. खण्ड विकास अधिकारी, दरियाबाद
	13. खण्ड विकास अधिकारी, पूरेडलई
54-फैजाबाद	6. उप जिलाधिकारी (न्यायिक), बीकापुर
	7. उप जिलाधिकारी (न्यायिक), रूदौली
	8. जिला विकास अधिकारी, अयोध्या
	9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अयोध्या
	10. खण्ड विकास अधिकारी रूदौली
	11. खण्ड विकास अधिकारी, मिल्कीपुर
	12. खण्ड विकास अधिकारी, बीकापुर
	13. खण्ड विकास अधिकारी, मयाबाज़ार
55-अम्बेडकरनगर	6. जिला विकास अधिकारी, अम्बेडकर नगर ।
	7. परियोजना निदेशक (जिला ग्राम्य विकास अभिकरण), अम्बेडकर नगर ।
	8. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अम्बेडकर नगर ।
	9. जिला कृषि अधिकारी, अम्बेडकर नगर ।
	10. उपायुक्त (स्वतः रोजगार), अम्बेडकर नगर ।
	11. उप निदेशक(कृषि), अम्बेडकरनगर
	12. उपायुक्त (श्रम रोजगार), अम्बेडकरनगर
	13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अम्बेडकरनगर
	14. जिला आबकारी अधिकारी, अम्बेडकरनगर
	15. जिला कार्यक्रम अधिकारी, अम्बेडकरनगर
56-बहराइच (अ0जा0)	6. तहसीलदार, मिहीपुरवा (मोतीपुर) ।
	7. तहसीलदार, नानपारा ।
	8. तहसीलदार, सदर बहराइच ।
	9. तहसीलदार, महसी ।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, चित्तौरा ।

57-कैसरगंज	6. डिप्टी कलेक्टर, गोण्डा
	7. जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोण्डा
	8. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गोण्डा
	9. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गोण्डा
	10. जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोण्डा
	11. खण्ड विकास अधिकारी, रूपईडीह गोण्डा ।
	12. खण्ड शिक्षा अधिकारी, छपिया गोण्डा ।
	13. खण्ड शिक्षा अधिकारी, पडरीकृपाल गोण्डा ।
	14. तहसीलदार, पयागपुर ।
	15. तहसीलदार, कैसरगंज ।
58-श्रावस्ती	6. उप जिलाधिकारी, जमुनहा
	7. उप जिलाधिकारी (न्यायिक), उतरौला
	8. नायब तहसीलदार पचपेड़वा
	9. नायब तहसीलदार, महाराजगंज तराई
	10. उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, बलरामपुर ।
	11. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर ।
	12. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बलरामपुर ।
59-गोन्डा	6. उप जिलाधिकारी, न्यायिक मनकापुर, गोण्डा
	7. जिला विकास अधिकारी, गोण्डा
	8. सहायक जिला निबंधक, सहकारी समितियां उ०प्र० जनपद गोण्डा
	9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य, गोण्डा
	10. खण्ड विकास अधिकारी, नवाबगंज गोण्डा ।
	11. खण्ड शिक्षा अधिकारी, करनैलगंज गोण्डा ।
	12. खण्ड शिक्षा अधिकारी, वजीरगंज गोण्डा ।
60-डुमरियागंज	6. उप जिलाधिकारी न्यायिक, नौगढ़ ।
	7. उप जिलाधिकारी न्यायिक, शोहरतगढ़ ।
	8. उप जिलाधिकारी न्यायिक, बांसी ।
	9. अपर उप जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
	10. उप जिलाधिकारी न्यायिक, डुमरियागंज ।
	11. खण्ड विकास अधिकारी, नौगढ़ ।
	12. खण्ड विकास अधिकारी, शोहरतगढ़ ।
	13. खण्ड विकास अधिकारी, बांसी ।
	14. खण्ड विकास अधिकारी, इटवा ।
	15. खण्ड विकास अधिकारी, डुमरियागंज ।
	16. खण्ड विकास अधिकारी, उस्का ।
	17. खण्ड विकास अधिकारी, बढनी ।
	18. खण्ड विकास अधिकारी, जोगिया ।
	19. खण्ड विकास अधिकारी, भनवापुर ।
	20. खण्ड विकास अधिकारी, खेसरहा ।
61-बस्ती	6. खण्ड विकास अधिकारी, परसरामपुर
	7. खण्ड विकास अधिकारी, विक्रमजोत
	8. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कप्तानगंज
	9. खण्ड विकास अधिकारी, गौर
	10. खण्ड विकास अधिकारी, कप्तानगंज
	11. खण्ड शिक्षा अधिकारी, हरैया
	12. खण्ड विकास अधिकारी, रामनगर

	13. खण्ड विकास अधिकारी, सल्टौआ गोपालपुर
	14. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बस्ती सदर
	15. खण्ड विकास अधिकारी, सांऊघाट
	16. खण्ड विकास अधिकारी, बस्ती सदर
	17. खण्ड शिक्षा अधिकारी, दुबौलिया
	18. खण्ड विकास अधिकारी, बहादुरपुर
	19. खण्ड विकास अधिकारी, बनकटी
	20. खण्ड शिक्षा अधिकारी, रूधौली
62-सन्त कबीर नगर	6. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, संत कबीर नगर
	7. अधिशासी अभियंता जल निगम, संत कबीर नगर
	8. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, संत कबीर नगर
	9. अधिशासी अभियंता सरयू नहर खण्ड, खलीलाबाद, संत कबीर नगर
	10. अधिशासी अभियंता ड्रेनेज खण्ड-2, संत कबीर नगर
	11. उप निदेशक कृषि, संत कबीर नगर
	12. अधिशासी अभियंता पी0एम0जी0एस0वाई0, संत कबीर नगर
	13. अधिशासी अभियंता आर0ई0एस0, संत कबीर नगर
	14. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, संत कबीर नगर
	15. उपायुक्त जी0एस0टी0, संत कबीर नगर
	16. श्रम प्रवर्तन अधिकारी, संत कबीर नगर
	17. डी0सी0 मनरेगा, संत कबीर नगर
	18. उपायुक्त उद्योग, संत कबीर नगर
63-महराजगंज	6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत महराजगंज ।
	7. जिला खाद्य विपणन अधिकारी, महराजगंज ।
	8. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहाकारिता, महराजगंज ।
	9. खण्ड विकास अधिकारी, पनियरा ।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, मिठौरा ।
	11. उपायुक्त(स्वतः रोजगार), महराजगंज
	12. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय महराजगंज
	13. जिला विद्यालय निरीक्षक, महराजगंज
	14. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम महराजगंज
64-गोरखपुर	6. जिला विकास अधिकारी, गोरखपुर ।
	7. जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोरखपुर ।
	8. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड 2, गोरखपुर
	9. खण्ड विकास अधिकारी, खोराबार ।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, पिपराईच ।
	11. खण्ड विकास अधिकारी, कैम्पियरगंज ।
	12. खण्ड विकास अधिकारी, चरगाँवा ।
	13. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर
	14. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर
	15. जिला पंचायत राज अधिकारी, गोरखपुर
	16. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, गोरखपुर
	17. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड 3, गोरखपुर
	18. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोरखपुर
	19. अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर
	20. अधिशासी अभियन्ता, बाढ खण्ड 2, गोरखपुर

	21. जिला आबकारी अधिकारी, गोरखपुर
	22. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, गोरखपुर
65-कुशीनगर	6. डिप्टी कलेक्टर, कुशीनगर- I
	7. डिप्टी कलेक्टर, कुशीनगर- II
	8. खण्ड विकास अधिकारी, खड्डा
	9. खण्ड विकास अधिकारी, पडरौना
	10. खण्ड विकास अधिकारी, विशुनपुरा
	11. खण्ड विकास अधिकारी, कसया
	12. खण्ड विकास अधिकारी, कप्तानगंज
	13. जिला युवा अधिकारी(नेहरू युवा केन्द्र) कुशीनगर
	14. सहायक श्रम आयुक्त, कुशीनगर
	15. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पडरौना कुशीनगर
	16. अधिशासी अभियन्ता बाढ खण्ड कुशीनगर
	17. जिला गन्ना अधिकारी कुशीनगर
	18. सहायक आयुक्त(खाद्य)-II कुशीनगर
	19. उपायुक्त, राज्य कर, कुशीनगर
66-देवरिया	6. बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, देवरिया
	7. जिला गन्ना अधिकारी, देवरिया
	8. जिला कृषि अधिकारी, देवरिया
	9. भूमि संरक्षण अधिकारी, देवरिया
	10. चकबन्दी अधिकारी, देवरिया-प्रथम
	11. चकबन्दी अधिकारी, देवरिया-द्वितीय
	12. चकबन्दी अधिकारी, भाटपार रानी
	13. खण्ड शिक्षा अधिकारी, तरकुलवा
	14. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बनकटा
	15. खण्ड शिक्षा अधिकारी, पथरदेवा
	16. खण्ड शिक्षा अधिकारी, भलुअनी
	17. खण्ड शिक्षा अधिकारी, गौरी बाजार
67-बांसगांव (अ0जा0)	6. परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, गोरखपुर ।
	7. जिला प्रोबेशन अधिकारी, गोरखपुर ।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, बड़हलगंज ।
	9. खण्ड विकास अधिकारी, बासगाँव ।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, सहजनवां ।
	11. अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड प्रथम, गोरखपुर
	12. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड प्रथम, गोरखपुर
	13. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड द्वितीय, गोरखपुर
	14. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर
	15. सहायक महानिरीक्षक, निबंधन गोरखपुर
	16. जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी, (बी) गोरखपुर
	17. जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी, (ए) गोरखपुर
	18. अधिशासी अभियन्ता लिफ्ट सिंचाई खण्ड, गोरखपुर
	19. अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गोरखपुर
	20. जिला दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण अधिकारी, गोरखपुर
	21. जिला युवा कल्याण अधिकारी, गोरखपुर

68-लालगंज (अ0जा0)	6. खण्ड विकास अधिकारी, कोयलसा ।
	7. संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी, पल्हना ।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, तहबरपुर ।
	9. खण्ड विकास अधिकारी, अहिरौला ।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, फूलपुर ।
	11. खण्ड विकास अधिकारी, मार्टीनगंज ।
	12. खण्ड विकास अधिकारी, लालगंज ।
	13. खण्ड विकास अधिकारी, मुहम्मदपुर ।
	14. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मिर्जापुर ।
	15. खण्ड शिक्षा अधिकारी, अहिरौला
	16. खण्ड शिक्षा अधिकारी, फूलपुर
	17. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कोयलसा
	18. खण्ड शिक्षा अधिकारी, लालगंज
	19. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मार्टीनगंज
	20. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मोहम्मदपुर
	21. खण्ड शिक्षा अधिकारी, पल्हना
	22. खण्ड शिक्षा अधिकारी, पवई
	23. खण्ड शिक्षा अधिकारी, तहबरपुर
	24. खण्ड शिक्षा अधिकारी, ठेकमा
	25. खण्ड शिक्षा अधिकारी, अतरौलिया
69-आजमगढ़	6. खण्ड विकास अधिकारी, महाराजगंज ।
	7. खण्ड विकास अधिकारी, सठियांव ।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, अजमतगढ़ ।
	9. खण्ड विकास अधिकारी, बिलरियागंज ।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, पल्हनी ।
	11. खण्ड विकास अधिकारी, हरैया ।
	12. खण्ड विकास अधिकारी, मेंहनगर ।
	13. संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी, जहानागंज
	14. संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी, बिलरियागंज
	15. खण्ड शिक्षा अधिकारी, तरवा
	16. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बिलरियागंज ।
	17. खण्ड शिक्षा अधिकारी, महाराजगंज ।
	18. खण्ड शिक्षा अधिकारी, हरैया।
	19. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मेंहनगर
	20. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सठियांव
	21. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर
	22. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय
	23. खण्ड शिक्षा अधिकारी, अजमतगढ़
	24. खण्ड शिक्षा अधिकारी, जहानागंज
	25. खण्ड शिक्षा अधिकारी, पल्हनी
	26. खण्ड शिक्षा अधिकारी, रानी की सराय
70-घोसी	6. उप निदेशक कृषि, मऊ ।
	7. उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, मऊ ।
	8. सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, मऊ ।
	9. जिला कृषि अधिकारी, मऊ ।
	10. जिला प्रोबेशन अधिकारी, मऊ ।

	11. जिला कार्यक्रम अधिकारी, मऊ ।
	12. खण्ड शिक्षा अधिकारी, रतनपुरा ।
	13. खण्ड शिक्षा अधिकारी, फतहपुर मण्डांव ।
	14. खण्ड शिक्षा अधिकारी, परदहा ।
	15. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बडरांव ।
	16. तहसीलदार, रसड़ा ।
	17. नायब तहसीलदार, रसड़ा ।
	18. खण्ड विकास अधिकारी, रसड़ा ।
71-सलेमपुर	6. नायब तहसीलदार, भीमपुरा
	7. नायब तहसीलदार, सीयर
	8. खण्ड विकास अधिकारी, नगरा
	9. उपायुक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बलिया
	10. नायब तहसीलदार, सिकन्दरपुर
	11. खण्ड विकास अधिकारी, पन्दह
	12. तहसीलदार, बांसडीह
	13. नायब तहसीलदार, बांसडीह
	14. खण्ड विकास अधिकारी, मनियर
	15. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बलिया
	16. उप जिलाधिकारी (न्यायिक), सिकन्दरपुर
	17. अवर अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई, बलिया-1
	18. अवर अभियन्ता, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड द्वितीय, बलिया-1
	19. अवर अभियन्ता, कार्यालय सिंचाई खण्ड प्रथम, बलिया-1
	20. अवर अभियन्ता, उ०प्र० राज्य सेतु निगम, लि० बलिया-1
	21. अवर अभियन्ता, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बलिया-1
	22. अवर अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई, बलिया-3
	23. अवर अभियन्ता, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड द्वितीय, बलिया-3
	24. अवर अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बलिया-1
	25. अवर अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, बलिया-4
	26. अवर अभियन्ता, कार्यालय सिंचाई खण्ड प्रथम, बलिया-2
	27. अवर अभियन्ता, कार्यालय सिंचाई खण्ड प्रथम, बलिया-3
	28. अवर अभियन्ता, कार्यालय सिंचाई खण्ड प्रथम, बलिया-4
	29. अवर अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, बलिया-5
	30. अवर अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, बलिया-6
	31. अवर अभियन्ता, उ०प्र० राज्य सेतु निगम, लि० बलिया-2
	32. अवर अभियन्ता, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बलिया-2
72-बलिया	6. तहसीलदार, बलिया
	7. नायब तहसीलदार, गड़वार

	8. खण्ड विकास अधिकारी, गड़वार
	9. जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, बलिया
	10. नायब तहसीलदार, नगर, बलिया
	11. खण्ड विकास अधिकारी, हनुमानगंज
	12. तहसीलदार, बैरिया
	13. नायब तहसीलदार, बैरिया
	14. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया
	15. उप जिलाधिकारी (न्यायिक), बैरिया
	16. उप जिलाधिकारी (न्यायिक), बांसडीह
	17. अवर अभियन्ता, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया-2
	18. अवर अभियन्ता, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बलिया-1
	19. अवर अभियन्ता, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बलिया-2
	20. अवर अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई, बलिया-2
	21. अवर अभियन्ता, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड द्वितीय, बलिया-2
	22. अवर अभियन्ता, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया-3
	23. अवर अभियन्ता, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया-4
	24. अवर अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई, बलिया-7
	25. अवर अभियन्ता, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया-5
	26. अवर अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई, बलिया-8
	27. अवर अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, बलिया-9
	28. अवर अभियन्ता, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया-6
	29. अवर अभियन्ता, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बलिया-3
	30. अवर अभियन्ता, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड द्वितीय, बलिया-4
	31. अवर अभियन्ता, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड द्वितीय-5, बलिया
	32. अवर अभियन्ता, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बलिया-4
73-जौनपुर	6. खण्ड विकास अधिकारी, बदलापुर
	7. बाल विकास परियोजना अधिकारी, करंजाकला
	8. खण्ड विकास अधिकारी, धर्मापुर
	9. बाल विकास परियोजना अधिकारी, खुटहन
	10. खण्ड विकास अधिकारी, बक्शा
	11. खण्ड विकास अधिकारी, महराजगंज
	12. खण्ड विकास अधिकारी, सिकरारा

	13. खण्ड विकास अधिकारी, सिरकोनी
	14. खण्ड विकास अधिकारी, जलालपुर
	15. खण्ड विकास अधिकारी, सुजानगंज
	16. बाल विकास परियोजना अधिकारी, रामनगर
	17. खण्ड शिक्षा अधिकारी, धर्मापुर
	18. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बक्शा
74-मछलीशहर (अ0जा0)	6. खण्ड विकास अधिकारी, मछलीशहर
	7. बाल विकास परियोजना अधिकारी, रामपुर
	8. खण्ड विकास अधिकारी, बरसठी
	9. खण्ड विकास अधिकारी, मुंगराबादशाहपुर
	10. बाल विकास परियोजना अधिकारी, सिरकोनी
	11. खण्ड विकास अधिकारी, डोभी
	12. खण्ड विकास अधिकारी, केराकत
	13. खण्ड विकास अधिकारी, मडियाहूँ
	14. खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर
	15. बाल विकास परियोजना अधिकारी, मछलीशहर
	16. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मछलीशहर
	17. खण्ड शिक्षा अधिकारी, केराकत
	18. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मडियाहूँ
75-गाजीपुर	6. डिप्टी कलेक्टर तृतीय, गाजीपुर।
	7. डिप्टी कलेक्टर चतुर्थ, गाजीपुर।
	8. तहसीलदार न्यायिक, जमानियां
	9. सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3 लो0नि0वि0, गाजीपुर
	10. सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2(प्र0प0) लो0नि0वि0, गाजीपुर
	11. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गाजीपुर
	12. जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजीपुर
	13. जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर।
	14. खण्ड विकास अधिकारी, सादात।
	15. खण्ड विकास अधिकारी, मनिहारी।
	16. खण्ड विकास अधिकारी, रेवतीपुर
	17. खण्ड विकास अधिकारी, देवकली।
	18. खण्ड विकास अधिकारी, जमानियां।
	19. खण्ड विकास अधिकारी, करण्डा।
	20. खण्ड विकास अधिकारी, सैदपुर।
	21. खण्ड विकास अधिकारी, मुहम्मदाबाद।
76-चन्दौली	6. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता चन्दौली
	7. सहायक निदेशक मत्स्य, चन्दौली
	8. उप प्रभागीय वनाधिकारी प्रभागीय कार्यालय रामनगर चन्दौली
	9. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चन्दौली
	10. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत चन्दौली
	11. अधिशासी अभियन्ता नलकूप प्रखण्ड चन्दौली
	12. उपायुक्त कार्यालय सहायक आयुक्त(प्रभारी) राज्यकर, (खण्ड-1) चन्दौली
	13. सहायक आयुक्त, कार्यालय सहायक आयुक्त(प्रभारी) राज्यकर (खण्ड-2) चन्दौली
	14. सहायक आयुक्त, कार्यालय सहायक आयुक्त(प्रभारी) राज्यकर

	(खण्ड-1) चन्दौली
	15. सहायक आयुक्त, कार्यालय सहायक आयुक्त(प्रभारी) राज्यकर(सचल दल) चन्दौली
	16. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चन्दौली
	17. उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चन्दौली
	18. अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय अस्थाई खण्ड (प्र0प0) लो0नि0वि0 चन्दौली
	19. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, चन्दौली
	20. जिला समाज कल्याण अधिकारी, चन्दौली
	21. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, चन्दौली
	22. उपायुक्त मनरेगा, चन्दौली
77-वाराणसी	6. खण्ड विकास अधिकारी, आराजी लाईन, वाराणसी ।
	7. खण्ड विकास अधिकारी, काशीविद्यापीठ, वाराणसी ।
	8. जिला उद्यान अधिकारी, वाराणसी ।
	9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, वाराणसी
	10. जिला कार्यक्रम अधिकारी, वाराणसी ।
	11. खण्ड विकास अधिकारी, बड़ागांव ।
	12. जिला कृषि अधिकारी, वाराणसी ।
	13. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, वाराणसी ।
	14. तहसीलदार, राजातालाब, वाराणसी ।
	15. खण्ड विकास अधिकारी, सेवापुरी, वाराणसी ।
	16. तहसीलदार पिण्डरा, वाराणसी
	17. खण्ड विकास अधिकारी पिण्डरा, वाराणसी
	18. खण्ड विकास अधिकारी चोलापुर, वाराणसी
	19. चकबन्दी अधिकारी प्रथम, वाराणसी
	20. तहसीलदार सदर, वाराणसी
	21. खण्ड विकास अधिकारी चिरईगांव, वाराणसी
	22. जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, वाराणसी
	23. चकबन्दी अधिकारी द्वितीय, वाराणसी
	24. नायब तहसीलदार, कटेहर, वाराणसी
	25. जिला सेवायोजन अधिकारी, वाराणसी
	26. जिला समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी
78-भदोही	6. तहसीलदार, हण्डिया ।
	7. खण्ड विकास अधिकारी, प्रतापपुर ।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, धनूपुर ।
	9. नायब तहसीलदार, प्रतापपुर हण्डिया ।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, सैदाबाद ।
	11. खण्ड विकास अधिकारी, हण्डिया ।
	12. चकबन्दी अधिकारी, हण्डिया ।
	13. नायब तहसीलदार, सैदाबाद, हण्डिया ।
	14. खण्ड विकास अधिकारी, भदोही ।
	15. खण्ड विकास अधिकारी, ज्ञानपुर ।
	16. खण्ड विकास अधिकारी, औराई ।
	17. खण्ड विकास अधिकारी, डीछ
	18. खण्ड विकास अधिकारी, सुरियावां

	19. खण्ड विकास अधिकारी, अभोली
	20. खण्ड शिक्षा अधिकारी, भदोही
	21. खण्ड शिक्षा अधिकारी, ज्ञानपुर
	22. खण्ड शिक्षा अधिकारी, औराई
79-मिर्जापुर	6. खण्ड विकास अधिकारी, लालगंज ।
	7. खण्ड विकास अधिकारी, सीटी ।
	8. खण्ड विकास अधिकारी, मझवां ।
	9. खण्ड विकास अधिकारी, नरायनपुर ।
	10. खण्ड विकास अधिकारी, पटेहरा कला ।
	11. खण्ड विकास अधिकारी, हलिया
	12. खण्ड विकास अधिकारी, छानवे
	13. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मझवां
	14. खण्ड विकास अधिकारी, सीखड़
	15. खण्ड विकास अधिकारी, जमालपुर
80-राबट्सगंज (अ0जा0)	6. डिप्टी कलेक्टर प्रथम, कलेक्ट्रेट, सोनभद्र
	7. उप जिलाधिकारी (न्यायिक), दुद्धी
	8. डिप्टी कलेक्टर द्वितीय, कलेक्ट्रेट, सोनभद्र
	9. तहसीलदार राबट्सगंज
	10. तहसीलदार ओबरा
	11. तहसीलदार घोरावल
	12. खण्ड विकास अधिकारी, घोरावल
	13. खण्ड विकास अधिकारी, नगवाँ
	14. खण्ड विकास अधिकारी, चतरा
	15. खण्ड विकास अधिकारी, चोपन
	16. खण्ड शिक्षा अधिकारी, घोरावल
	17. खण्ड शिक्षा अधिकारी, राबट्सगंज

2. उपर्युक्त अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 की मतगणना प्रक्रिया पूरी होने के तुरन्त बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में कार्यरत नहीं रहेंगे ।

[सं. 434/उ0प्र0-लो0स0/2023(1)]

आदेश से,

पवन दीवान, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2024

O.N. 126(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, hereby, appoints the officers of the Government specified in Column (2) of the Table below, as the Assistant Returning Officers, in addition to the existing Assistant Returning Officers notified vide Commission's Notification No. 434/UP-HP/2023(1), dated 20th October, 2023, as amended from time to time, to assist the Returning Officers of the Parliamentary Constituencies in the State of Uttar Pradesh, as specified in the Column (1) of the said Table, for the execution of their works with respect to the counting of votes for the ongoing General Elections from the Parliamentary Constituencies mentioned in Column (1) of the Table:-

TABLE

Number & Name of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
1-Saharanpur	6. Tehsildar, Behat.
	7. Block Development Officer, Muzaffarabad.
	8. Block Education Officer, Muzaffarabad.
	9. Tehsildar, Saharanpur.
	10. District Programme Officer, Saharanpur.
	11. Block Education Officer, Baliakheri.
	12. Dy. Collector First, Saharanpur.
	13. Block Development Officer, Punwarka.
	14. Block Education Officer, Punwarka.
	15. Tehsildar, Deoband.
	16. Block Development Officer, Deoband.
	17. Block Education Officer, Deoband.
	18. Dy. Collector Second, Saharanpur.
	19. Tehsildar, Rampur Maniharan.
	20. Block Education Officer, Rampur Maniharan.
2-Kairana	6. Executive Engineer Lower Section Eastern Yamuna Canal, Shamli
	7. Block Education Officer, Unn
	8. Executive Engineer Jal Nigam, Shamli
	9. Child Development Officer Thanabhawan, Shamli
	10. Block Education Officer, Kairana
	11. District Economics and Statistics Officer(A), Shamli
	12. District Economics and Statistics Officer(B), Shamli
	13. Assistant Labour Commissioner Shamli
	14. Block Development Officer, Unn
	15. Deputy Commissioner State Tax Division 1, Shamli
	16. Assisatant Engineer, Minor Irrigation Department Shamli
	17. District Agriculture Officer, Shamli
	18. Deputy Director Agriculture, Shamli
	19. Assistant Registrar and Supporting Committees Shamli
	20. Deputy Commissioner State Tax Division 3rd, Shamli
	21. Block Development Officer, Sarsawa.
	22. Block Development Officer, Nagal.
	23. Block Education Officer, Nakur.
	24. Tehsildar, Nakur.
	25. Block Development Officer, Gangoh.
	26. Block Education Officer, Gangoh.
3-Muzaffarnagar	6. Tehsildar, Budhana.
	7. Block Development Officer, Shahpur.
	8. Block Development Officer, Budhana.
	9. Block Education Officer, Budhana.

	10. Block Development Officer, Sadar, Muzaffarnagar.
	11. Assistant Commissioner and Assistant Registrar of Co-operative, Muzaffarnagar.
	12. Block Development Officer, Charthawal.
	13. Block Education Officer, Charthawal.
	14. District Sugarcane Office, Muzaffarnagar.
	15. District Agricultural Officer, Muzaffarnagar.
	16. District Economics and Statistical Office-First, Muzaffarnagar.
	17. Block Education Officer, Sadar, Muzaffarnagar.
	18. Tehsildar, Khatauli.
	19. Block Development Officer, Khatauli.
	20. Nayab Tehsildar, Khatauli.
4-Bijnor	21. Block Education Officer, Khatauli.
	6. Block Development Officer, Mohammadpur Devmal
	7. Block Development Officer, Haldaur
	8. Block Development Officer, Jalilpur
	9. Block Education Officer, Mohammadpur Devmal
	10. Block Education Officer, Haldaur
	11. Block Education Officer, Jalilpur
	12. Block Education Officer, Nagar Bijnor
	13. Block Education Officer, Noorpur
	14. Block Education Officer, Alhepur
	15. Block Education Officer, Budhanpur
5-Nagina (SC)	16. Block Education Officer, Afzalgarh
	17. Block Education Officer, Aaku Nahtaur
	18. Block Education Officer, Kiratpur
	19. Tehsildar, Sadar, Muzaffarnagar.
	20. District Social Welfare Officer, Muzaffarnagar.
	21. Nayab Tehsildar, Purqazi.
	22. Block Education Officer, Purqazi.
	23. Tehsildar, Jansath.
	24. Block Development Officer, Jansath.
	25. District Training Officer, Jansath.
	26. Block Education Officer, Jansath.
6-Moradabad	6. Block Development Officer, Afzalgarh.
	7. Block Development Officer, Kotwali.
	8. Block Development Officer, Seohara.
	9. Block Development Officer, Noorpur.
	10. Block Development Officer, Najibabad.
	11. Block Development Officer, Kiratpur.
	12. Block Development Officer, Dhampur.
	13. Block Development Officer, Nahtaur.
6-Moradabad	6. Additional District Magistrate (Finance and Revenue), Moradabad.
	7. Additional District Magistrate (City), Moradabad

	8. Additional District Magistrate (Judicial), Moradabad
	9. City Magistrate, Moradabad.
	10. Additional Sub Divisional Officer, Moradabad
	11. Sub Divisional Officer(Judicial), Tehsil Bilari
	12. Deputy Collector, Moradabad
	13. Project Director, District Rural Development Agency, Moradabad
	14. District Development Officer, Moradabad
7-Rampur	6. District Inspector of Schools, Rampur.
	7. Assistant Commissioner, District Industry Centre, Rampur.
	8. Nayab Tehsildar tehsil Suar, Rampur.
	9. Executive Engineer, Construction Section, Jal Nigam, Rampur.
	10. Assistant Engineer, PWD, Provincial Section, Rampur.
	11. Nayab Tehsildar Tehsil Tanda, Rampur.
	12. Deputy Divisional Forest Officer, Rampur.
	13. Block Education Officer Bilaspur, Rampur.
	14. Nayab Tehsildar tehsil Bilaspur, Rampur.
	15. Block Education Officer Nagar, Rampur.
	16. Block Development Officer Chamraua, Rampur.
	17. Nayab Tehsildar, Panwariya tehsil Sadar, Rampur.
	18. Nayab Tehsildar, Chamraua tehsil Sadar, Rampur.
	19. Assistant Engineer, PWD, Construction Section Rampur.
	20. Assistant Engineer, District Rural Development Agency Rampur.
	21. Nayab Tehsildar tehsil Milak, Rampur.
8-Sambhal	6. Deputy Director Consolidation, Sambhal.
	7. District Development Officer, Sambhal.
	8. Project Director, DRDA, Sambhal.
	9. District Inspector of Schools, Sambhal.
	10. Deputy Director Agriculture, Sambhal.
9-Amroha	6. Tehsildar, Garhmukteshwar.
	7. Block Development Officer, Garhmukteshwar.
	8. Deputy Collector I, Amroha.
	9. Deputy Collector II, Amroha.
	10. Block Development Officer, Hasanpur.
	11. Project Director, DRDA, Amroha.
	12. District Inspector of School, Amroha
	13. District Development Officer, Amroha
	14. Deputy Director Agriculture, Amroha
	15. District Basic Education Officer, Amroha
10-Meerut	6. Tehsildar, Hapur.
	7. Block Development Officer, Hapur.
	8. Block Development Officer, Rohta.
	9. Block Development Officer, Sarurpur.
	10. Block Development Officer, Meerut.
	11. Block Education Officer, Parikshitgarh.
	12. Block Education Officer, Sardhana.

	13. Block Education Officer, Hastinapur.
	14. Block Education Officer, Rajpura.
	15. Block Education Officer, Meerut Rural.
	16. Naib Tehsildar I, Meerut
	17. Naib Tehsildar II, Meerut
	18. Naib Tehsildar Hastinapur, Tehsil Mawana
	19. Naib Tehsildar Sardhana, Tehsil Sardhana
	20. District Sugarcane Officer, Meerut
	21. District Program Officer, Meerut
11-Baghat	6. Additional District Magistrate (Judicial) Baghat
	7. Deputy Collector/Office Incharge, Collectorate IInd Baghat
	8. District Development Officer, Baghat
	9. Chief Veterinary Officer, Baghat
	10. Deputy Commissioner, Commercial Tax, Baghat
	11. District Agriculture Officer, Baghat
	12. Executive Engineer, Tubewell Division, (P) Baghat
	13. District Food & Marketing Officer, Baghat
	14. District Excise Officer, Baghat
	15. Block Development Officer, Pilana
	16. Block Development Officer, Baraut
	17. Block Development Officer, Chhaprauli
	18. Add. Statical Officer, Bachat, Baghat
	19. District Probation Officer, Baghat
	20. Block Education Officer, Bhojpur.
	21. District Cane Officer, Ghaziabad.
12-Ghaziabad	6. Food Safety Officer, Loni.
	7. Block Education Officer, Loni.
	8. Block Development Officer, Muradnagar.
	9. Block Education Officer, Muradnagar.
	10. Block Development Officer, Razapur.
	11. Block Education Officer, Razapur.
	12. Plant Protection Officer, Ghaziabad.
	13. District Social Welfare Officer (Development), Ghaziabad.
	14. Backward Class Welfare Officer, Ghaziabad.
	15. District Social Welfare Officer, Ghaziabad.
	16. District Probation Officer Ghaziabad.
	17. District Village Industries Officer Ghaziabad.
	18. Block Education Officer, Nagar, Ghaziabad.
	19. Block Education Officer, Kavinagar Zone, Ghaziabad.
	20. Tehsildar Dhaulana
	21. Block Development Officer, Dhaulana
13-Gautam Buddha Nagar	6. District Horticulture Officer, Gautam Buddha Nagar
	7. District Panchayat Raj Officer, Gautam Buddha Nagar.
	8. Deputy Commissioner, Industries, Gautam Buddha Nagar
	9. Deputy Agriculture Director, Gautam Buddha Nagar

	10. Block Development Officer, Bisrakh, Gautam Buddha Nagar
	11. District Probation Officer, Gautam Buddha Nagar
	12. Block Development Officer, Dadri, Gautam Buddha Nagar
	13. District Agriculture Officer, Gautam Buddha Nagar
	14. District Program Officer, Gautam Buddha Nagar
	15. District Development Officer, Gautam Buddha Nagar
	16. District Minority Welfare Officer, Gautam Buddha Nagar
	17. District Backward Class Welfare Officer, Gautam Buddha Nagar
	18. District Social Welfare Officer (Development), Gautam Buddha Nagar.
	19. Additional Labor Commissioner, Gautam Buddha Nagar
	20. District Disability Empowerment Officer, Gautam Buddha Nagar
14-Bulandshahr (SC)	21. District Basic Education Officer, Gautam Buddha Nagar.
	6. Sub Divisional Officer (Judicial), Sadar Bulandshahr
	7. Sub Divisional Officer (Judicial), Sayana.
	8. Sub Divisional Officer (Judicial), Anupshahr.
	9. Sub Divisional Officer (Judicial), Khurja.
	10. District Development Officer, Bulandshahr.
	11. District Basic Education Officer, Bulandshahr.
	12. District Panchayat Raj Officer, Bulandshahr.
	13. Deputy Commissioner, District Industry Promotion and Entrepreneurship Development Centre, Bulandshahr.
	14. Block Development Officer, Sikandrabad.
	15. Block Development Officer, Jahangirabad.
15-Aligarh	16. Block Development Officer, Shikarpur
	17. Block Development Officer, Khurja
	18. Block Education Officer, Arnia
	19. Block Education Officer, Gulavathi
	20. Block Education Officer, Shikarpur
	21. Block Education Officer, Pahasu
	22. District Cane Officer, Bulandshahr
	23. Assistant Labor Commissioner, Bulandshahr
	24. Assistant Commissioner and Assistant Registrar Cooperative, Bulandshahr
	25. District Agriculture Officer, Bulandshahr
	6. Sub Divisional Officer (Judicial), Iglas
	7. Block Education Officer, Chandaus
	8. Block Education Officer, Atrauli
	9. Block Education Officer, Lodha
	10. Block Education Officer, Iglas
	11. Block Education Officer, Khair
	12. Block Education Officer, Tappal
	13. Block Education Officer, Jawan
	14. Block Education Officer, Akraabad
	15. Block Education Officer, City Area Zone 1, Aligarh

	16. Block Education Officer, City Area Zone 2, Aligarh
	17. Block Education Officer, City Area Zone 3, Aligarh
	18. Block Development Officer, Khair
	19. Block Development Officer, Tappal
	20. Block Development Officer, Chandaus
	21. Block Development Officer, Atrauli
	22. Block Development Officer, Bijauli
	23. Block Development Officer, Jawan
16-Hathras (SC)	6. Block Education Officer, Hathras
	7. Block Education Officer, Sasni
	8. Block Education Officer, Sadabad
	9. Block Education Officer, Mursan
	10. Block Development Officer, Sahpau
	11. Block Development Officer, Hathras.
	12. Block Development Officer, Sadabad.
	13. Block Development Officer, Sikandrara.
	14. Block Development Officer, Sasni.
	15. Block Development Officer, Hasayan
	16. Chief Veterinary Officer, Hathras
	17. District Basic Education Officer, Hathras.
	18. District Program Officer, Hathras.
	19. Apar Mukhya Adhikari, Jila Panchayat, Hathras.
	20. District Plant Protection Officer, Hathras
	21. Deputy Director Agriculture, Hathras
17-Mathura	6. Block Development Officer, Farah.
	7. Block Development Officer, Nandgaon.
	8. Block Development Officer, Goverdhan.
	9. Block Development Officer, Nauhajheel.
	10. Block Education Officer, Chaumuhan
	11. Block Education Officer, Chhata
	12. Block Education Officer, Nandgaon
	13. Block Education Officer, Mant
	14. Block Education Officer, Nauhjheel
	15. Block Education Officer, Mathura(Rural)
	16. Block Education Officer, Mathura(City Area)
	17. Block Education Officer, Baldev
18-Agra (SC)	6. Tehsildar Etmadpur
	7. Block Development Officer, Etmadpur
	8. Superintendent Engineer, Provincial Division, Irrigation Work, Sichai & Jal Sansadhan Vibhag, Agra
	9. Executive Engineer, Vikas Khand-2, UP Avas Vikas Vibhag, Agra
	10. District Panchayat Raj Officer, Agra
	11. Executive Engineer, UP State Nirman Nigam Ltd Unit-1, Agra
	12. Executive Engineer, Electrical Mechanical, Agra Development Authority, Housing and Urban Planning, Agra.

	13. Principal, ITI Agra
	14. Block Development Officer, Barauli Ahir
	15. Executive Engineer, Civil, Agra Development Authority, Housing and Urban Planning Agra.
	16. Superintendent Engineer, Agra Circle Office Complex Sector 13 Sikandra, Agra.
	17. Principal, ITI Fatehabad, Agra.
	18. Block Development Officer, Bichpuri
	19. Superintendent Engineer, Agra Development Authority, Housing and Urban Planning Agra.
	20. Executive Engineer, Vidut Vitran Khand I, Agra
	21. Block Development Officer, Achhnera
19-Fatehpur Sikri	6. Tehsildar, Sadar, Agra
	7. Block Development Officer, Saiyan
	8. Superintendent Engineer, Agra Circle PWD, Agra
	9. Executive Engineer, Vidut Vitran Khand, Kheragarh, Agra
	10. Tehsildar Kirawali, Agra
	11. Block Development Officer, Fatehpuri Sikri
	12. Executive Engineer, Agra Circle, PWD, Agra
	13. Executive Engineer, Vidut Vitran Khand II, Fatehabad, Agra
	14. Tehsildar, Kheragarh, Agra
	15. Block Development Officer, Kheragarh
	16. Executive Engineer, Vidut Vitran Khand, IV, Kirawali, Agra
	17. Superintendent Engineer, Office PMGSY. Circle, PWD, Agra
	18. Tehsildar, Fatehabad
	19. Block Development Officer, Fatehabad
	20. Executive Engineer, UP Construction and Infrastructure Development 121A, Sector-13, Awas Vikas Colony, Agra
	21. Executive Engineer, Vidut Vitran Khand, Bah, Agra
	22. Tehsildar, Bah
	23. Block Development Officer, Bah
	24. Executive Engineer, Central Water Commission, Nichli Yamuna Mandal, Sec-12C, Awas Vikas Colony, Agra
	25. Superintendent Engineer, UP Project Corporation Ltd, Agra
20-Firozabad	6. District Horticulture Officer, Firozabad.
	7. Deputy Commissioner, District Industries Centre, Firozabad
	8. Block Development Officer, Firozabad
	9. Block Development Officer, Jasrana
	10. Block Development Officer, Hathwant
	11. Block Development Officer, Tundla
	12. Block Development Officer, Shikohabad
	13. Block Development Officer, Madanpur
	14. Block Development Officer, Araon
	15. Block Development Officer, Eka

21-Mainpuri	6. Sub Divisional Officer, Ghiror.
	7. Sub Divisional Officer, Kurawali.
	8. Deputy Collector, Mainpuri.
	9. Tehsildar, Kurawali.
	10. Tehsildar, Ghiror.
	11. District Inspector of School, Mainpuri.
	12. District Basic Education Officer, Mainpuri.
	13. Assistant District Employment Officer, Mainpuri.
	14. District Backward Welfare Officer, Mainpuri.
	15. Deputy Director Agriculture, Mainpuri.
	16. District Divyangjan Empowerment Officer, Mainpuri.
	17. Block Development Officer, Mainpuri.
	18. Block Development Officer, Bewar.
	19. Block Development Officer, Kishni.
	20. Block Development Officer, Jagir.
	21. Block Development Officer, Karhal.
	22. Block Development Officer, Ghiror.
	23. Block Development Officer, Sultanganj.
	24. Block Development Officer, Kuraoli.
	25. Principal District Institution of Education and Training, (DIET), Bhongaon Mainpuri.
22-Etah	6. Deputy Agriculture Director, Kasganj
	7. Block Development Officer, Kasganj.
	8. Assistant Engineer, Public Works Department, Kasganj.
	9. District Backward Welfare Officer, Kasganj.
	10. Block Education Officer, Amanpur.
	11. Assistant Consolidation Officer, Kasganj.
	12. Block Education Officer, Patiali.
	13. Tehsildar, Kasganj
	14. Tehsildar, Sahawar
	15. Tehsildar, Patiali
	16. District Horticulture Officer, Kasganj
	17. District Social Welfare Officer, Kasganj
	18. District Cane Officer, Kasganj
	19. Project Officer, District Urban Development Authority, Kasganj
	20. Block Development Officer, Soron
	21. Block Development Officer, Sahawar
	22. Block Development Officer, Amanpur
23-Badaun	6. Tehsildar Sadar, Budaun.
	7. Tehsildar, Sahswan.
	8. Tehsildar, Bilsa.
	9. Tehsildar, Bisauli.
	10. Tehsildar, Dataganj.
	11. District Inspector of School, Budaun.
	12. Block Development Officer, Asafpur.

	13. Block Development Officer, Kaderchok.
	14. Block Development Officer, Bisauli.
	15. Block Education Officer, Kaderchok.
	16. Block Education Officer, Salarpur.
	17. Block Education Officer, Dehganwa.
	18. District Coordinator (Girls Education), Budaun.
	19. Assistant Commissioner Labour, Budaun.
	20. Executive Engineer, Flood Division, Budaun.
	21. Executive Engineer, Rural Engineering Department Budaun.
	22. District Disability Empowerment Officer, Budaun.
	23. District Employment Officer, Budaun.
24-Aonla	6. Deputy Director Divisional Deputy Director Education, Third Division, Bareilly
	7. Joint Commissioner Industries Bareilly Division, Bareilly
	8. Assistant Engineer/Rural Engineering Department, Bareilly
	9. Assistant Engineer, Uttar Pradesh State Construction and Infrastructure Development Corporation, Bareilly
	10. Junior Engineer(Civil), Construction Division-1 Public Works Department, Bareilly
	11. Joint Commissioner, (Executive) Division-B, Deputy Commissioner of Administration State Tax Bareilly
	12. Joint Commissioner, (RST) Division-B, Deputy Commissioner, State Tax Bareilly
	13. Block Education Officer, Faridpur.
	14. Block Education Officer, Bithari Chainpur.
	15. Block Development Officer, Majhgawan.
25-Bareilly	6. Assistant Engineer, Research and Planning(R&P) Division, Bareilly
	7. Assistant Professor, Bareilly College, Bareilly
	8. Deputy Commissioner State Tax Department Division-2 Bareilly
	9. Deputy Commissioner State Tax Department Division-5 Bareilly
	10. Regional Dairy Development Officer Bareilly Division, Bareilly
	11. Block Development Officer, Fatehganj (West).
	12. Block Development Officer, Bhojipura.
	13. Block Development Officer, Baheri
	14. Block Education Officer, Bhojipura.
	15. Block Education Officer, Nawabganj.
26-Pilibhit	6. Block Education Officer, Amaria
	7. Block Education Officer, Barkhera
	8. Block Education Officer, Bilsanda
	9. Block Education Officer, Bisalpur
	10. Block Education Officer, Lalorikhera
	11. Block Education Officer, Marori
	12. Block Education Officer, Puranpur
	13. Block Education Officer, City Pilibhit

	14. Block Development Officer, Amaria
	15. Block Development Officer, Barkhera
	16. Block Development Officer, Bilsanda
	17. Block Development Officer, Bisalpur
	18. Block Development Officer, Lalorikhera
	19. Block Development Officer, Puranpur
	20. Assistant Commissioner and Assistant Registrar Cooperative, Pilibhit.
27-Shahjahanpur (SC)	7. Tehsildar, Kalan.
	8. Block Development Officer, Jaitipur.
	9. Tehsildar, Jalalabad.
	10. Block Education Officer, Jalalabad.
	11. Tehsildar, Tilhar.
	12. Block Development Officer, Katra-Khudaganj.
	13. Tehsildar, Powayan.
	14. Block Development Officer, Banda.
	15. Tehsildar, Sadar, Shahjahanpur.
	16. Block Development Officer, Bhawalkhera.
	17. Consolidation Officer, Shahjahanpur.
	18. Block Development Officer, Dadraul.
	19. Extra Magistrate - 1st, Shahjahanpur.
	20. Principal, Government Polytechnic, Shahjahanpur.
	21. District Cane Officer, Shahjahanpur.
	22. Deputy Commissioner, Trade Tax, Shahjahanpur.
	23. Block Education Officer, Bhawalkhera.
28-Kheri	6. Tehsildar, Paliya.
	7. Tehsildar, Nighasan.
	8. Tehsildar, Gola Gokaran Nath.
	9. Tehsildar, Lakhimpur.
	10. Block Development Officer, Lakhimpur.
	11. Block Development Officer, Bijuwa
	12. Block Development Officer, Nakha
	13. Block Development Officer, Nighasan
	14. Block Development Officer, Phoolbehad
	15. Block Development Officer, Gola
29-Dhaurahra	6. District Development Officer, Kheri
	7. Tehsildar, Dhaurahra.
	8. Tehsildar, Mitauli.
	9. Tehsildar, Mohammadi.
	10. Block Development Officer, Mohammadi
	11. Block Development Officer, Mitauli
	12. Block Development Officer, Dhaurahra
	13. Block Development Officer, Isanagar
	14. Block Development Officer, Ramiyabehad
	15. Block Development Officer, Bankeganj

30-Sitapur	6. Block Development Officer, Khairabad
	7. Block Development Officer, Biswan
	8. Block Development Officer, Persendi
	9. Block Development Officer, Mahmoodabad
	10. Block Development Officer, Pahla
	11. Block Development Officer, Rampur Mathura
	12. Block Development Officer, Sakran
31-Hardoi (SC)	6. Block Development Officer, Harpalpur.
	7. Block Development Officer, Shahabad.
	8. Block Development Officer, Bawan.
	9. Block Development Officer, Tadiawan.
	10. Block Development Officer, Hariyawan.
	11. Block Development Officer, Pihani
	12. Block Development Officer, Sursa
	13. Block Development Officer, Ahirori
32-Misrikh (SC)	6. Block Development Officer, Bilgram.
	7. Block Development Officer, Behandar.
	8. Block Development Officer, Sandila.
	9. Block Development Officer, Bharwan
	10. Block Development Officer, Kothawan
	11. Block Development Officer, Madhauganj
	12. Block Development Officer, Mallawan
	13. Block Development Officer, Tondarpur
33-Unnao	14. District Basic Education Officer, Hardoi
	7. Block Development Officer, Nawabganj
	8. Block Development Officer, Auras
	9. Block Development Officer, Fatehpur 84
	10. Block Development Officer, Bangarmau.
	11. Block Development Officer, Safipur.
	12. Block Development Officer, Hasanganj
	13. Block Development Officer, Purva.
	14. Block Development Officer, Sikandarpur Sarosi.
	15. Block Development Officer, Bighapur
	16. Block Development Officer, Bichhiya
	17. Block Education Officer, Asoha.
	18. Block Education Officer, Bichhiya.
	19. Block Education Officer, Hasanganj.
34-Mohanlalganj (SC)	20. Block Education Officer, S. Karan
	21. Block Education Officer, Sumerpur
	6. District Development Officer, Lucknow.
	7. Project Director, District Rural Development Agency, Lucknow.
	8. Tehsildar, Malihabad.
	9. Block Development Officer, Malihabad.
	10. Block Development Officer, Mall.

	11. Block Education Officer, Malihabad.
	12. Block Education Officer, Mall.
	13. Tehsildar, Bakshi Ka Talab.
	14. Block Development Officer, Bakshi ka Talab.
	15. Block Development Officer, Chinhat.
	16. Block Education Officer, Bakshi ka Talab.
	17. Block Education Officer, Chinhat.
	18. Tehsildar, Sarojni Nagar.
	19. Block Development Officer, Sarojni Nagar.
	20. Block Education Officer, Sarojni Nagar.
	21. District Assistant Registrar and Cooperative Societies, Lucknow.
	22. District Youth Welfare Officer, Lucknow.
	23. Tehsildar, Mohanlalganj.
	24. Block Development Officer, Mohanlalganj.
	25. Block Development Officer, Gosaiganj.
	26. Block Education Officer, Mohanlalganj.
	27. Block Education Officer, Gosaiganj.
35-Lucknow	6. Additional District Magistrate, Judicial, Lucknow.
	7. City Magistrate, Lucknow.
	8. Additional City Magistrate First, Lucknow
	9. Block Development Officer, Kakori.
	10. Block Education Officer, Kakori.
	11. District Agriculture Protection Officer, Lucknow.
	12. District Probation Officer, Lucknow.
	13. Land Conservation Officer, Lucknow.
	14. Consolidation Officer, Mohanlalganj Lucknow.
	15. Block Education Officer, City Area Zone-3
	16. District Horticulture Officer, Lucknow.
	17. Chief Executive Officer (Fisheries) Lucknow.
	18. District Agriculture Officer, Lucknow.
	19. Child Development Project Officer, Malihabad
	20. Child Development Project Officer, Chinhat
	21. Child Development Project Officer, Mohanlalganj
	22. Sub Registrar Sadar First, Lucknow
	23. Sub Registrar Sadar Second, Lucknow
	24. Tehsildar, Sadar Lucknow
	25. Block Education Officer, City Area Zone-4
	26. District Disability Empowerment Officer, Lucknow.
	27. Additional Chief Officer, District Panchayat, Lucknow.
	28. Chief Food Safety Officer, Lucknow.
	29. Block Education Officer, City Area Zone-1
	30. District Food and Marketing Officer, Lucknow.
	31. District Minority Welfare Officer, Lucknow.
	32. District Social Welfare Officer (Development) Lucknow.
	33. Sub Divisional Agricultural Extension Officer, Lucknow.

36-Rae Bareli	6. Block Development Officer, Mahrajganj
	7. Block Development Officer, Rahi
	8. Block Development Officer, Sareni
	9. Block Development Officer, Harchandpur
	10. Block Development Officer, Lalganj
	11. Block Development Officer, Dalmau
	12. Block Development Officer, Unchahar
	13. Block Development Officer, Deeh
	14. Block Education Officer, Rahi
	15. Block Education Officer, Bachhrawan
	16. Block Education Officer, Satav
	17. Block Education Officer, Unchahar
37-Amethi	6. Block Development Officer, Tiloi.
	7. Block Development Officer, Bahadurpur.
	8. Block Education Officer, Tiloi.
	9. Block Development Officer, Musafirkhana.
	10. Block Development Officer, Bazarshukul.
	11. Block Education Officer, Musafirkhana.
	12. Block Development Officer, Gauriganj.
	13. Block Development Officer, Jamon.
	14. Block Education Officer, Gauriganj.
	15. Block Development Officer, Amethi.
	16. Block Development Officer, Sangrampur.
	17. Block Education Officer, Amethi.
	18. Land Conservation Officer, Amethi
	19. Backward Classes Welfare Officer, Amethi
	20. District Food and Marketing Officer, Amethi
	21. Deputy Commissioner, Commercial Tax, Amethi
	22. Assistant Statistical, Amethi
	23. District Social Welfare Officer (Development)
	24. Jila Gramodhyog Adhikari, Amethi
	25. Consolidation Officer, Musafirkhana
38-Sultanpur	6. Settlement Officer Consolidation, Sultanpur.
	7. Additional Sub Divisional Magistrate (Sadar), Sultanpur.
	8. District Panchayat Raj Officer, Sultanpur.
	9. District Economics and Static Officer, Sultanpur.
	10. Assistant Labour Commissioner, Sultanpur.
	11. Executive Engineer, PMGSY, PWD, Sultanpur
	12. Executive Engineer, Irrigation Division-2, Sultanpur
	13. Executive Engineer, Tube Well Division, Sultanpur
	14. Executive Engineer, Sharda Assistant Block-16, Sultanpur
	15. Executive Engineer, Rural Engineering Department Block, Sultanpur
	16. Chief Veterinary Officer, Sultanpur
	17. Executive Engineer, Minor Irrigation, Amhat, Sultanpur

	18. Assistant Inspector General of Registration, Sultanpur
	19. Executive Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Rural, Vinavpuri, Sultanpur
	20. Senior Technical Assistant Group-A Sub Divisional Agriculture Extension Officer, Sultanpur
	21. Deputy Commissioner of State Tax, Sultanpur.
39-Pratapgarh	6. Chief Revenue Officer, Pratapgarh.
	7. District Development Officer, Pratapgarh.
	8. District Agriculture Officer, Pratapgarh.
	9. District Basic Education Officer, Pratapgarh
	10. Senior Treasury Officer, Pratapgarh
	11. District Inspector of School, Pratapgarh
	12. Assistant Commissioner & Assistant Registrar, Co-operative Societies, Pratapgarh.
40-Farrukhabad	6. Deputy Collector (Headquarters), Farrukhabad
	7. Block Development Officer, Kayamganj.
	8. Block Development Officer, Nawabganj.
	9. Block Development Officer, Shamsabad.
	10. Block Development Officer, Kamalganj.
	11. Block Development Officer, Mohammadabad.
	12. Block Development Officer, Rajepur.
	13. Block Development Officer, Badhpur.
	14. Block Education Officer, Kayamganj.
	15. Block Education Officer, City Area, Farrukhabad.
	16. Block Education Officer, Nawabganj.
	17. Block Education Officer, Badhpur.
	18. Assistant Inspector General Registration, Farrukhabad
41-Etawah (SC)	6. Sub Divisional Officer(Extra), Etawah.
	7. Sub Divisional Officer (Judicial), Sadar, Etawah
	8. Sub Divisional Officer (Judicial), Bharthana
	9. Sub Divisional Officer, Takha
	10. Sub Divisional Officer, Chakarnagar
	11. Tehsildar, Saifai
	12. Tehsildar, Takha
	13. Tehsildar, Chakarnagar
	14. Tehsildar(Judicial), Bharthana
	15. Naib Tehsildar, Saifai
	16. Naib Tehsildar, Bharthana
	17. Naib Tehsildar, Chakarnagar
	18. Naib Tehsildar, Basrehar
	19. Block Education Officer, Bharthana
	20. Block Education Officer, Saifai
	21. Block Education Officer, Nagar Kshetra, Etawah
	22. Block Education Officer, Head Office I
	23. Block Education Officer, Head Office II

	24. Block Education Officer, Head Office III
	25. Block Education Officer, Badhpura
	26. Block Development Officer, Bharthana
	27. Block Development Officer, Basrehar
	28. Block Development Officer, Takha
42-Kannauj	6. District Development Officer, Kannauj.
	7. Block Development Officer, Chhibramau.
	8. Executive Engineer, Tube Well Division, Kannauj.
	9. Food Safety Officer, Kannauj Sadar.
	10. District Horticulture Officer, Kannauj.
	11. District Inspector of School, Kannauj.
	12. Block Education Officer, Kannauj.
	13. Project Director, DRDA, Kannauj.
	14. Block Development Officer, Haseran.
	15. District Probation Officer, Kannauj.
	16. Executive Engineer, PWD(CD), Kannauj.
	17. District Social Welfare Officer, Kannauj.
	18. Block Education Officer, Umarda.
	19. Soil Conservation Officer, Kannauj.
	20. Assistant Engineer, Rural Engineering Department, Kannauj.
43-Kanpur	6. Additional District Magistrate (Land Aquisition), Kanpur Nagar
	7. Officer on Special Duty, First, KDA, Kanpur Nagar.
	8. Assistant Commissioner, State Tax, Section-17, Kanpur Nagar.
	9. Assistant Commissioner, State Tax, Mobile squad, Unit-7, Kanpur Nagar.
	10. Assistant Commissioner, State Tax, Sector-1 Kanpur Nagar.
	11. Assistant Commissioner, State Tax, Sector -10, Kanpur Nagar.
	12. Assistant Inspector General Registration, Kanpur Nagar
	13. Sub Registrar Zone-1 Sadar Kanpur Nagar
	14. Executive Engineer Abhiyantran Section Zone-6 Sarojini Nagar Kanpur Nagar
	15. Executive Engineer Construction Section-02 PWD Kanpur Nagar
	16. Executive Engineer National Highway Section PWD Kanpur Nagar
	17. Sub Registrar Zone-2 Sadar Kanpur Nagar
44-Akbarpur	6. Secretary, Kanpur Development Authority, Kanpur Nagar
	7. Officer on Special Duty, II, KDA, Kanpur Nagar.
	8. Block Development Officer, Vidhnu, Kanpur Nagar.
	9. Sub Registrar Zone-4 Sadar Kanpur Nagar
	10. Block Development Officer, Bheetargaon Kanpur Nagar.
	11. Sub Registrar Ghatampur, Kanpur Nagar
	12. Executive Engineer Research & Planning (JS) Khand Kanpur Nagar
	13. Executive Engineer Uttar Pradesh State Construction and Infrastructure Development Kanpur Nagar
	14. Executive Engineer Nagar Nigam Zone-2 Krishna Nagar Kanpur Nagar

	15. Executive Engineer Abhiyantran Section 05 Nagar Nigam Zone-5 Jageshwar Hospital Kanpur Nagar
	16. Sub Registrar Bilhaur Kanpur Nagar
	17. Sub Registrar Zone-3 Sadar Kanpur Nagar
	18. Executive Engineer Electrical Mechanical Section, Mackrobertganj, Kanpur Nagar
	19. Executive Engineer Tubewell Section 01 Kanpur Nagar
	20. Deputy Director, Horticulture, Kanpur Nagar
	21. Executive Engineer UP Small Industries Corporation Limited Kanpur Nagar
	22. Deputy Commissioner, Section 15 State Tax, Kanpur Nagar
	23. Deputy Director (Construction) State Krishi Utpadan Mandi Parishad, Kanpur Nagar
45-Jalaun (SC)	6. Sub Divisional Magistrate, Konch.
	7. Sub Divisional Magistrate, Jalaun.
	8. Additional Sub Divisional Magistrate, Sadar Orai.
	9. Tehsildar, Konch
	10. Tehsildar, Madhogarh
	11. Tehsildar, Kalpi
	12. Tehsildar, Orai
	13. Tehsildar, Jalaun
	14. Block Development Officer, Jalaun
	15. Block Development Officer, Rampura
	16. Block Development Officer, Mahewa
	17. Block Development Officer, Kuthond
	18. Block Development Officer, Nadigaon
46-Jhansi	6. Sub Divisional Officer (Judicial), Moth.
	7. Tehsildar, Moth.
	8. Block Development Officer, Moth.
	9. District Inspector of School, Jhansi.
	10. Naib Tehsildar, Moth. Tehsil Moth.
	11. Sub Divisional Officer (Judicial), Jhansi.
	12. Tehsildar, Jhansi.
	13. District Divyang Jan & Sasastikaran Officer, Jhansi.
	14. Block Development Officer, Babina.
	15. Naib Tehsildar, Jhansi, Tehsil Jhansi.
	16. Sub Divisional Officer (Judicial), Mauranipur.
	17. Tehsildar, Mauranipur.
	18. Tehsildar, Tehroli.
	19. Block Development Officer, Bangra.
	20. Naib Tehsildar, Ranipur, Tehsil Mauranipur.
	21. Sub Divisional Officer (Judicial), Garautha.
	22. Tehsildar, Garautha.
	23. District Panchyatraj Officer, Jhansi.
	24. Block Development Officer, Gursarai.
	25. Naib Tehsildar, Gursarai Tehsil, Garautha.

47-Hamirpur	6. Sub Divisional Officer, Charkhari.
	7. Tehsildar, Mahoba.
	8. Tehsildar, Kulpahar.
	9. Tehsildar, Charkhari.
	10. Consolidation Officer, Hamirpur
	11. Block Development Officer, Maudaha.
	12. Assistant Director, Fisheries, Hamirpur.
	13. Deputy Commissioner, Industries, Hamirpur.
	14. Block Education Officer, Muskara
	15. Block Education Officer, Gohand.
	16. District Minority Welfare Officer, Hamirpur.
	17. Block Education Officer, Maudaha.
	18. District Probation Officer, Hamirpur.
	19. District Social Welfare Officer, Hamirpur.
48-Banda	6. Sub Divisional Officer, Rajapur.
	7. Sub Divisional Officer, Attarra.
	8. Tehsildar, Pailani
	9. Tehsildar, Baberu
	10. Tehsildar, Naraini
	11. Tehsildar, Attarra
	12. Tehsildar, Banda
	13. Block Development Officer, Tindwari
	14. Block Development Officer, Baberu
	15. Block Development Officer, Naraini
49-Fatehpur	7. Block Development Officer, Amauli.
	8. Block Development Officer, Khajuha.
	9. Block Development Officer, Haswa.
	10. Block Development Officer, Asothar.
	11. Block Development Officer, Airanya.
	12. Block Development Officer, Dhata.
	13. Block Development Officer, Devmai
	14. Block Development Officer, Malwan
	15. Block Development Officer, Bhitaura
	16. Block Development Officer, Bahuva
	17. Block Development Officer, Hathgam
	18. Block Development Officer, Vijaypur
50-Kaushambi (SC)	19. Block Education Officer, Devmai
	20. Block Education Officer, Vijaypur
	21. Block Education Officer, Dhata
	6. Sub Divisional Officer (Judicial) Chail, Kaushambi
	7. Block Development Officer, Kaushambi.
	8. Block Development Officer Manjhanpur
	9. Block Development Officer, Muratganj
	10. Assistant Block Education Officer, Kaushambi
	11. Assistant Block Education Officer, Kada

	12. Assistant Section Education Officer, Nevada
51-Phulpur	6. Tehsildar, Soraon.
	7. Block Development Officer, Holagarh.
	8. Block Development Officer, Shringverpur Dham.
	9. Nayab Tehsildar (Nawabganj) Soraon.
	10. Block Development Officer, Mauaima.
	11. Block Development Officer, Soraon.
	12. Consolidation Officer, Soraon.
	13. Nayab Tehsildar (Mirzapur Chauharry) Soraon.
	14. Tehsildar, Phulpur.
	15. Block Development Officer, Phulpur.
	16. Block Development Officer, Sahson.
	17. Nayab Tehsildar, Madhya Phulpur.
	18. Block Development Officer, Bahadurpur.
	19. Block Development Officer, Bahria.
	20. Block Development Officer, Bhagwatpur.
	21. Nayab Tehsildar, Government Establishment.
	22. Tehsildar Sadar, Prayagraj.
	23. Block Development Officer, Kaudihar.
	24. Nayab Tehsildar, Trade Tax.
52-Allahabad	6. Tehsildar, Meja.
	7. Block Development Officer, Meja.
	8. Block Development Officer, Manda.
	9. Block Development Officer, Uruwa.
	10. Block Development Officer, Chaka.
	11. Block Development Officer, Karchhana.
	12. Block Development Officer, Koundhiyara.
	13. Nayab Tehsildar. Panasa Karchhana.
	14. Tehsildar Karchhana.
	15. Consolidation Officer Sadar, Prayagraj.
	16. Naib Tehsildar, Sealing.
	17. Naib Tehsildar, (Naini) Karchhana.
	18. Tehsildar, Bara.
	19. Block Development Officer, Sankargarh.
	20. Block Development Officer, Jasra.
	21. Naib Tehsildar, Bara.
	22. Tehsildar, Koraon.
	23. Block Development Officer, Koraon.
	24. Naib Tehsildar, Barokhar Koraon.
	25. Naib Tehsildar, Dia Koraon.
53-Barabanki (SC)	6. Block Development Officer, Nindura
	7. Block Development Officer, Fatehpur
	8. Block Development Officer, Banikodar
	9. Block Development Officer, Banki
	10. Block Development Officer, Suratganj

	11. Block Development Officer, Dewa
	12. Block Development Officer, Daryabad
	13. Block Development Officer, Puredalai
54-Faizabad	6. Sub Divisional Magistrate (Judicial), Bikapur
	7. Sub Divisional Magistrate (Judicial), Rudauli
	8. District Development Officer, Ayodhya.
	9. District Basic Education Officer, Ayodhya
	10. Block Development Officer, Rudauli
	11. Block Development Officer, Milkipur
	12. Block Development Officer, Bikapur
	13. Block Development Officer, Mayabazar
55-Ambedkar Nagar	6. District Development Officer, Ambedkar Nagar.
	7. Project Director (District Rural Development Agency), Ambedkar Nagar.
	8. District Basic Education Officer, Ambedkar Nagar.
	9. District Agriculture Officer, Ambedkar Nagar.
	10. Deputy Commissioner (Self Employment), Ambedkar Nagar.
	11. Deputy Director(Agriculture), Ambedkarnagar
	12. Deputy Commissioner (Labour Employment), Ambedkarnagar
	13. District Finance and Statistics Officer, Ambedkarnagar
	14. District Excise Officer, Ambedkarnagar
	15. District Program Officer, Ambedkarnagar
56-Bahraich (SC)	6. Tehsildar, Mihipurwa (Motipur).
	7. Tehsildar, Nanpara.
	8. Tehsildar, Sadar Bahraich.
	9. Tehsildar, Mahsi.
	10. Block Development Officer, Chittaura
57-Kaiserganj	6. Deputy Collector, Gonda
	7. District Social Welfare Officer, Gonda
	8. District Backward Class Welfare Officer, Gonda
	9. Project Director, District Rural Development Agency, Gonda
	10. District Program Officer, Gonda
	11. Block Development Officer, Rupaideeh Gonda.
	12. Block Education Officer, Chhapiya Gonda.
	13. Block Education Officer, Pandrikripal Gonda.
	14. Tehsildar, Payagpur.
	15. Tehsildar, Kaiserganj.
58-Shrawasti	6. Sub Divisional Officer, Jamunaha.
	7. Sub Divisional Officer(Judicial), Utraula.
	8. Naib Tehsildar, Pachpedwa
	9. Naib Tehsildar, Maharajganj Tarai
	10. Sub Divisional Agricultural Extension Officer, Balrampur
	11. District Minority Welfare Officer, Balrampur
	12. District Backward Class Welfare Officer Balrampur.
59-Gonda	6. Sub Divisional Officer, Judicial Mankapur, Gonda

	7. District Development Officer, Gonda
	8. Assistant District Registrar, Cooperative Societies, U.P. District Gonda
	9. Chief Executive Officer, Fishary, Gonda
	10. Block Development Officer, Nawabganj Gonda.
	11. Block Education Officer, Colonelganj Gonda.
	12. Block Education Officer, Wazirganj Gonda.
60-Domariyaganj	6. Sub Divisional Officer Judicial, Naugarh.
	7. Sub Divisional Officer Judicial, Shohratgarh.
	8. Sub Divisional Officer Judicial, Bansi.
	9. Additional Sub Divisional Officer, Siddharthnagar.
	10. Sub Divisional Officer Judicial, Domariyaganj.
	11. Block Development Officer, Naugarh.
	12. Block Development Officer, Shohratgarh.
	13. Block Development Officer, Bansi.
	14. Block Development Officer, Etwa.
	15. Block Development Officer, Domariyaganj.
	16. Block Development Officer, Uska
	17. Block Development Officer, Barhni.
	18. Block Development Officer, Jogiya.
	19. Block Development Officer, Bhanwapur.
	20. Block Development Officer, Khesraha.
61-Basti	6. Block Development Officer, Parasrampur
	7. Block Development Officer, Vikramjot
	8. Block Education Officer, Kaptanganj
	9. Block Development Officer, Gaur
	10. Block Development Officer, Kaptanganj
	11. Block Education Officer, Haraiya
	12. Block Development Officer, Ramnagar
	13. Block Development Officer, Saltaua Gopalpur
	14. Block Education Officer, Basti Sadar
	15. Block Development Officer, Sanughat
	16. Block Development Officer, Basti Sadar
	17. Block Education Officer, Dubaulia
	18. Block Development Officer, Bahadurpur
	19. Block Development Officer, Bankati
	20. Block Education Officer, Rudhauri
62-Sant Kabir Nagar	6. Chief Veterinary Officer, Sant Kabir Nagar
	7. Executive Engineer Jal Nigam, Sant Kabir Nagar
	8. Executive Engineer, Provincial Division Public Works Department, Sant Kabir Nagar
	9. Executive Engineer Saryu Nahar Khand, Khalilabad, Sant Kabir Nagar
	10. Executive Engineer Drainage Khand-2, Sant Kabir Nagar
	11. Deputy Director Agriculture, Sant Kabir Nagar

	12. Executive Engineer PMGSY, Sant Kabir Nagar
	13. Executive Engineer RES, Sant Kabir Nagar
	14. Additional Chief Officer District Panchayat, Sant Kabir Nagar
	15. Deputy Commissioner GST, Sant Kabir Nagar
	16. Labour Enforcement Officer, Sant Kabir Nagar
	17. DC MNREGA, Sant Kabir Nagar
	18. Deputy Commissioner Industries, Sant Kabir Nagar
63-Maharajganj	6. Executive Engineer, Electric Maharajganj.
	7. District Food Marketing Officer, Maharajganj.
	8. Assistant Commissioner and Assistant Registrar Cooperative. Maharajganj.
	9. Block Development Officer, Paniyara.
	10. Block Development Officer, Mithora.
	11. Deputy Commissioner (Swatah Rojgar), Maharajganj
	12. Executive Engineer, Irrigation Division II Maharajganj
	13. District Inspector of School, Maharajganj
	14. Executive Engineer, Irrigation Section I, Maharajganj
64-Gorakhpur	6. District Development Officer, Gorakhpur.
	7. District Program Officer, Gorakhpur.
	8. Executive Engineer, Construction Division 2, Gorakhpur
	9. Block Development Officer, Khorabar.
	10. Block Development Officer, Pipraich.
	11. Block Development Officer, Campierganj.
	12. Block Development Officer, Charganwa.
	13. District Inspector of School, Gorakhpur
	14. District Basic Education Officer, Gorakhpur
	15. District Panchayat Raj Officer, Gorakhpur
	16. Executive Engineer, Construction Division Building, Gorakhpur
	17. Executive Engineer, Construction Division 3, Gorakhpur
	18. Principal, Government Industrial Training Institute, Gorakhpur
	19. Executive Engineer, Drainage Division, Gorakhpur
	20. Executive Engineer, Flood Division 2, Gorakhpur
	21. District Excise Officer, Gorakhpur
	22. Executive Engineer, Tube Well Construction Division, Gorakhpur
65-Kushi Nagar	6. Deputy Collector, Kushinagar-I.
	7. Deputy Collector, Kushinagar-II.
	8. Block Development Officer, Khadda
	9. Block Development Officer, Padrauna
	10. Block Development Officer, Vishunpura
	11. Block Development Officer, Kasya
	12. Block Development Officer, Kaptanganj
	13. District Youth Officer (Nehru Yuva Kendra) Kushinagar
	14. Assistant Labour Commissioner, Kushinagar
	15. Principal, Government Industrial Training Institute Padrauna Kushinagar

	16. Executive Engineer Flood Division Kushinagar
	17. District Cane Officer Kushinagar
	18. Assistant Commissioner (Food)-II. Kushinagar
	19. Deputy Commissioner, State Tax, Kushinagar
66-Deoria	6. Settlement Officer Consolidation, Deoria
	7. District Cane Officer, Deoria
	8. District Agriculture Officer, Deoria
	9. Soil Conservation Officer, Deoria
	10. Consolidation Officer, Deoria-1 st
	11. Consolidation Officer, Deoria-2 nd
	12. Consolidation Officer, Bhatpar Rani
	13. Block Education Officer, Tarkulwa
	14. Block Education Officer, Banakata
	15. Block Education Officer, Pathardeva
	16. Block Education Officer, Bhaluani
	17. Block Education Officer, Gauri Bazar
67-Bansgaon (SC)	6. Project Director, DRDA, Gorakhpur.
	7. District Probation Officer, Gorakhpur.
	8. Block Development Officer, Barhalganj.
	9. Block Development Officer, Basgaon.
	10. Block Development Officer, Sahjanwan.
	11. Executive Engineer, Saryu Nahar Division I, Gorakhpur
	12. Executive Engineer, Tube Well Division I, Gorakhpur
	13. Executive Engineer, Tube Well Division II, Gorakhpur
	14. Executive Engineer, Irrigation Workshop Division, Gorakhpur
	15. Assistant Inspector General, Registration Gorakhpur
	16. District Economics and Statistical Officer, (B) Gorakhpur
	17. District Economics and Statistical Officer, (A) Gorakhpur
	18. Executive Engineer Lift Irrigation Division, Gorakhpur
	19. Executive Engineer Rural Engineering Department, Gorakhpur
	20. District Disabled Persons and Empowerment Officer, Gorakhpur
	21. District Youth Welfare Officer, Gorakhpur
68-Lalganj (SC)	6. Block Development Officer, Koyalsa.
	7. Joint Block Development Officer, Palhana.
	8. Block Development Officer, Tahbarpur.
	9. Block Development Officer, Ahiroula.
	10. Block Development Officer, Phulpur.
	11. Block Development Officer, Martinganj.
	12. Block Development Officer, Lalganj.
	13. Block Development Officer, Muhammadpur.
	14. Block Education Officer, Mirzapur.
	15. Block Education Officer, Ahirola
	16. Block Education Officer, Phulpur
	17. Block Education Officer, Koyalsa
	18. Block Education Officer, Lalganj

	19. Block Education Officer, Martinganj
	20. Block Education Officer, Mohammadpur
	21. Block Education Officer, Palhana
	22. Block Education Officer, Powai
	23. Block Education Officer, Tehbarpur
	24. Block Education Officer, Thekma
	25. Block Education Officer, Atraulia
69-Azamgarh	6. Block Development Officer, Maharajganj.
	7. Block Development Officer, Sathiyao.
	8. Block Development Officer, Ajmatgarh.
	9. Block Development Officer, Bilariaganj.
	10. Block Development Officer, Palahni.
	11. Block Development Officer, Haraiya.
	12. Block Development Officer, Mehnagar.
	13. Joint Block Development Officer, Jahanaganj
	14. Joint Block Development Officer, Bilariaganj
	15. Block Education Officer, Tarwa
	16. Block Education Officer, Bilariaganj.
	17. Block Education Officer, Maharajganj.
	18. Block Education Officer, Haraiya.
	19. Block Education Officer, Mehnagar
	20. Block Education Officer, Sathiyao
	21. Block Education Officer, City
	22. Block Education Officer, Headquarters
	23. Block Education Officer, Ajmatgarh
	24. Block Education Officer, Jahanaganj
	25. Block Education Officer, Palahni
	26. Block Education Officer, Rani Ki Sarai
70-Ghosi	6. Deputy Director Agriculture, Mau.
	7. Sub Divisional Agricultural Extension Officer, Mau.
	8. Assistant Registrar Cooperative Societies, Mau.
	9. District Agriculture Officer, Mau.
	10. District Probation Officer, Mau.
	11. District Program Officer, Mau.
	12. Block Education Officer, Ratanpura.
	13. Block Education Officer, Fatehpur Mandaon.
	14. Block Education Officer, Pardaha.
	15. Block Education Officer, Badraon.
	16. Tehsildar, Rasra.
	17. Naib Tehsildar, Rasra.
	18. Block Development Officer, Rasra.
71-Salempur	6. Nayab Tehsildar, Bhimpura
	7. Nayab Tehsildar, Siar
	8. Block Development Officer, Nagara
	9. Deputy Commissioner, National Rural Livelihood Mission, Ballia

	10. Nayab Tehsildar, Sikanderpur
	11. Block Development Officer, Pandah
	12. Tehsildar, Bansdih
	13. Nayab Tehsildar, Bansdih
	14. Block Development Officer, Maniyar
	15. Project Director, District Rural Development Authority, Ballia
	16. Sub Divisional Officer (Judicial), Sikanderpur
	17. Junior Engineer, Office of Assistant Engineer Minor Irrigation, Ballia-1.
	18. Junior Engineer, Office of the Executive Engineer, Tube Well Section II Ballia-1.
	19. Junior Engineer, Office of Irrigation Division I, Ballia-1.
	20. Junior Engineer, Uttar Pradesh State Bridge Corporation, Ltd. Ballia-1.
	21. Junior Engineer, Office of the Executive Engineer, Construction Division, PWD, Ballia-1.
	22. Junior Engineer, Office of Assistant Engineer Minor Irrigation, Ballia-3.
	23. Junior Engineer, Office of the Executive Engineer, Tube Well Section II Ballia-3.
	24. Junior Engineer, Provincial Division, PWD, Ballia-1.
	25. Junior Engineer, Office of Assistant Engineer Minor Irrigation, Ballia-4.
	26. Junior Engineer, Office of Irrigation Division I, Ballia-2.
	27. Junior Engineer, Office of Irrigation Division I, Ballia-3.
	28. Junior Engineer, Office of Irrigation Division I, Ballia-4.
	29. Junior Engineer, Office of Assistant Engineer Minor Irrigation, Ballia-5.
	30. Junior Engineer, Office of Assistant Engineer Minor Irrigation, Ballia-6.
	31. Junior Engineer, Uttar Pradesh State Bridge Corporation, Ltd. Ballia-2.
	32. Junior Engineer, Office of the Executive Engineer, Construction Division, PWD, Ballia-2.
72-Ballia	6. Tehsildar, Ballia
	7. Nayab Tehsildar, Garwar
	8. Block Development Officer, Garwar
	9. District Disable Person Empowerment Officer, Ballia
	10. Nayab Tehsildar, Nagar, Ballia
	11. Block Development Officer, Hanumanganj
	12. Tehsildar, Bairia
	13. Nayab Tehsildar, Bairia
	14. District Social Welfare Officer, Ballia
	15. Sub Divisional Officer (Judicial), Bairia
	16. Sub Divisional Officer (Judicial), Bansdih
	17. Junior Engineer, Office of the Executive Engineer, Provincial Division, PWD, Ballia-2.
	18. Junior Engineer, Office of the Executive Engineer, Rural

	Engineering Department, Ballia-1.
	19. Junior Engineer, Office of the Executive Engineer, Rural Engineering Department, Ballia-2.
	20. Junior Engineer, Office of Assistant Engineer Minor Irrigation, Ballia-2.
	21. Junior Engineer, Office of the Executive Engineer, Tube Well Section II Ballia-2.
	22. Junior Engineer, Office of the Executive Engineer, Provincial Division, PWD, Ballia-3.
	23. Junior Engineer, Office of the Executive Engineer, Provincial Division, PWD, Ballia-4.
	24. Junior Engineer, Office of Assistant Engineer Minor Irrigation, Ballia-7.
	25. Junior Engineer, Office of the Executive Engineer, Provincial Division, PWD, Ballia-5.
	26. Junior Engineer, Office of Assistant Engineer Minor Irrigation, Ballia-8.
	27. Junior Engineer, Office of Assistant Engineer Minor Irrigation, Ballia-9.
	28. Junior Engineer, Office of the Executive Engineer, Construction Division, PWD, Ballia-6.
	29. Junior Engineer, Office of the Executive Engineer, Rural Engineering Department, Ballia-3.
	30. Junior Engineer, Office of the Executive Engineer, Tube Well Section II Ballia-4.
	31. Junior Engineer, Office of the Executive Engineer, Tube Well Section II Ballia-5.
	32. Junior Engineer, Office of the Executive Engineer, Rural Engineering Department, Ballia-4.
73-Jaunpur	6. Block Development Officer, Badlapur
	7. Child Development Project Officer, Karanjakala
	8. Block Development Officer, Dharmapur
	9. Child Development Project Officer, Khuthan
	10. Block Development Officer, Baksha
	11. Block Development Officer, Maharajganj
	12. Block Development Officer, Sikrara
	13. Block Development Officer, Sirkoni
	14. Block Development Officer, Jalalpur
	15. Block Development Officer, Sujanganj
	16. Child Development Project Officer, Ramnagar
	17. Block Education Officer, Dharmapur
	18. Block Education Officer, Baksha
74-Machhlishahr (SC)	6. Block Development Officer, Machhilishahr
	7. Child Development Project Officer, Rampur
	8. Block Development Officer, Barsathi
	9. Block Development Officer, Mungarabadshahpur
	10. Child Development Project Officer, Sirkoni
	11. Block Development Officer, Dobhi
	12. Block Development Officer, Kerakat

	13. Block Development Officer, Madiyahu
	14. Block Development Officer, Rampur
	15. Child Development Project Officer, Machhilishahr
	16. Block Education Officer, Machhilishahr
	17. Block Education Officer, Kerakat
	18. Block Education Officer, Madiyahu
75-Ghazipur	6. Deputy Collector III, Ghazipur.
	7. Deputy Collector IV, Ghazipur.
	8. Tehsildar Judicial, Zamania
	9. Assistant Engineer, Construction Division-3 PWD, Ghazipur
	10. Assistant Engineer, Construction Division-2 (PP), PWD, Ghazipur
	11. Project Director, District Rural Development Agency, Ghazipur
	12. District Panchayat Raj Officer, Ghazipur
	13. District Agriculture Officer, Ghazipur.
	14. Block Development Officer, Sadat.
	15. Block Development Officer, Manihari.
	16. Block Development Officer, Rewatipur.
	17. Block Development Officer, Devkali.
	18. Block Development Officer, Zamania.
	19. Block Development Officer, Karanda.
	20. Block Development Officer, Saidpur.
	21. Block Development Officer, Muhammadabad
76-Chandauli	6. Assistant Commissioner and Assistant Registrar Co-operatives Chandauli
	7. Assistant Director Fisheries, Chandauli
	8. Sub Divisional Forest Officer, Divisional Office Ramnagar, Chandauli
	9. District Economic and Statistics Officer, Chandauli
	10. Additional Chief Officer, District Panchayat, Chandauli
	11. Executive Engineer, Tubewell Block, Chandauli
	12. Deputy Commissioner Office Assistant Commissioner(In-charge) State Tax, (Khand-1) Chandauli
	13. Assistant Commissioner, Office Assistant Commissioner(In-charge) State Tax(Khand-2) Chandauli
	14. Assistant Commissioner, Office of the Assistant Commissioner(In-charge) State Tax(Khand-1) Chandauli
	15. Assistant Commissioner, Office of the Assistant Commissioner (Incharge) State Tax (Sachal Dal) Chandauli
	16. Chief Veterinary Officer, Chandauli
	17. Deputy Chief Veterinary Officer, Chandauli
	18. Executive Engineer, Office Temporary Section (TP), PWD Chandauli
	19. District Disabled Empowerment Officer, Chandauli
	20. District Social Welfare Officer, Chandauli
	21. District Backward Welfare Officer, Chandauli
	22. Deputy Commissioner MNREGA, Chandauli
77-Varanasi	6. Block Development Officer, Araj Line, Varanasi.

	7. Block Development Officer, Kashi Vidyapeeth, Varanasi.
	8. District Horticulture Officer, Varanasi.
	9. District Probation Officer, Varanasi
	10. District Program Officer, Varanasi.
	11. Block Development Officer, Baragaon.
	12. District Agriculture Officer, Varanasi.
	13. Block Education Officer, Headquarters, Varanasi.
	14. Tehsildar, Rajatalab, Varanasi.
	15. Block Development Officer, Sewapuri, Varanasi.
	16. Tehsildar Pindra, Varanasi
	17. Block Development Officer Pindra, Varanasi
	18. Block Development Officer Cholapur, Varanasi
	19. Consolidation Officer I, Varanasi
	20. Tehsildar Sadar, Varanasi
	21. Block Development Officer Chiraigaon, Varanasi
	22. District Minority Welfare Officer, Varanasi
	23. Consolidation Officer II, Varanasi
	24. Naib Tehsildar, Katehar, Varanasi
	25. District Employment Officer, Varanasi
	26. District Social Welfare Officer, Varanasi
78-Bhadohi	6. Tehsildar, Handiya.
	7. Block Development Officer, Pratappur.
	8. Block Development Officer, Dhanupur.
	9. Naib Tehsildar, Pratappur Handia.
	10. Block Development Officer, Saidabad.
	11. Block Development Officer, Handiya.
	12. Consolidation Officer, Handiya.
	13. Naib Tehsildar, Saidabad, Handiya.
	14. Block Development Officer, Bhadohi.
	15. Block Development Officer, Gyanpur.
	16. Block Development Officer, Aurai.
	17. Block Development Officer, Deegh
	18. Block Development Officer, Suriyawa
	19. Block Development Officer, Abholi
	20. Block Education Officer, Bhadohi
	21. Block Education Officer, Gyanpur
	22. Block Education Officer, Aurai
79-Mirzapur	6. Block Development Officer, Lalganj.
	7. Block Development Officer, CT.
	8. Block Development Officer, Majhwan.
	9. Block Development Officer, Narayanpur.
	10. Block Development Officer, Patehra Kala.
	11. Block Development Officer, Haliya
	12. Block Development Officer, Chhanbey
	13. Block Education Officer, Majhawan
	14. Block Development Officer, Shikhar
	15. Block Development Officer, Jamalpur

80-Robertsganj (SC)	6. Deputy Collector I, Collectorate, Sonbhadra
	7. Deputy District Magistrate (Judicial), Duddhi
	8. Deputy Collector II, Collectorate, Sonbhadra
	9. Tehsildar Robertsganj
	10. Tehsildar Obra
	11. Tehsildar Ghorawal
	12. Block Development Officer, Ghorawal
	13. Block Development Officer, Nagwa
	14. Block Development Officer, Chatra
	15. Block Development Officer, Chopan
	16. Block Education Officer, Ghorawal
	17. Block Education Officer, Robertsganj

2. The above officers shall cease to function as Assistant Returning Officers immediately after the completion of process of Counting of Votes in the ongoing General Elections, 2024 in the State of Uttar Pradesh.

[No. 434/UP-HP/2023(1)]

By Order,

PAWAN DIWAN, Secy.